

MSIL: COS: NSE&BSE: 2021

16th January, 2021

Vice President National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Bandra- Kurla Complex Bandra (E) Mumbai - 400 051 General Manager Department of Corporate Services BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai- 400 001

Sub: Newspaper Notice

Dear Sir,

Please find attached the newspaper notice published in 'The Financial Express' and in 'Jansatta', intimating the date of upcoming Board Meeting.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,

For Maruti Suzuki India Limited

Sanjeev Grover Vice President & Company Secretary

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

Head Office: Maruti Suzuki India Limited, 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070, India. Tel: 011- 46781000, Fax: 011-46150275/46150276 E-mail id: contact@maruti.co.in, www.marutisuzuki.com Gurgaon Plant: Maruti Suzuki India Limited, Old Palam Gurgaon Road, Gurgaon - 122015, Haryana, India. Tel: 0124-2346721, Fax: 0124-2341304 Manesar Plant: Maruti Suzuki India Limited, Plot No.1, Phase - 3A, IMT Manesar, Gurgaon - 122051, Haryana, India. Tel: 0124-4884000, Fax: 0124-4884199

CIN: L34103DL1981PLC011375

DELHI



समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य	16:30 16:32	फिरोजाबाद		Review Report from Statutory Auditors, Tradin				[ादवाला तथा ाव	•		
अधिकारी ये डाटा मिटा दें। सूत्रों				Window in equity shares will remain closed from 01.01.2021 to 04.02.2021 for all insiders, an		Ludhiana NEXT DATE: 17-02-2021 nest date, purpose of case, orders and judgments as		/	के विनियमन 12	-	
ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।	17:05 17:10	दूण्डला जक्शन		Any other matter with the permission of Chair.	01.01.2021 to 04.02.2021 for all insiders, and	well as other case information is available on	र्ए।	रेनिट्स सैल्स प्राईवेट	लिमिटेड के स्टेव	तधारकों के ध्यानार्थ	
सूत्रों ने कहा कि पिछले साल 31	अलीगड़ जं कालका	। स्टेशनों के बीच समय में कोई परिवर्तन	न नही	New Delhi SUMIT GUPTA - Directo	r Any other matter with the permission of Chair.	http://districts.ecourts.govt.in/ludhiana CNR NO: PBLD03-031279-2018	2				
दिसंबर को केंद्रीय गृह सचिव	03:00	कालका		15.01.2021 DIN: 0691174		Katak Mahladra Dank Va	क्रम सं	. विवरण	विवरण		
e e					15.01.2021 DIN: 00074532	M/s S J Constructions	1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एरिनिट्स सैल्स	प्राईवेट लिमिटेड	
अजय भल्ला ने मुख्य चुनाव	रेलयात्रियों से अनुप	रोध है कि रेलगाड़ियों के ठह	हराव /	100 3		Notice To,1. M/s S J Constructions	2	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निग	मन की 31 अक्टबर 20	103	
आयुक्त सुनील अरोंड़ा को पत्र	श्रेणियों आदि की	ो जानकारी के लिए दूरमाष स	9 139	(?) वैभव ग्लो	बल लिमिटेड	Through Its Prop Ashish Sachdeva,	2.	तिथि			
लिखकर आग्रह किया था कि			Seal constraints	पंजीकृत कार्यालय- के-6बी, 1	फ्तेह टीबा, आदर्श नगर, जयपुर-302004	Sachdeva Bhawan Joraphatak Road Dhanbad - 826001 (bihar) 2. Ashish	55		~~~		
आयोग बूथ स्तर पर 50 साल से		करें अथवा रेलवे की वेबसाइट			41-2605077; CIN: L36911RJ1989PLC004945;	Sachdeva Prop Of SJ Constructions, R/o	3.		· · · ·	– नई दिल्ली में कम्पनी अधिनियम, -	
अधिक उम्र के लोगों की पहचान	https://enquiry.indi	anrail.gov.in अथवा NTES A	App देखें ।		;lobal.com; वेवसाइट : www.vaibhavglobal.com	Building No. A/389 2nd Floor, Defence		ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है			
				बोर्ड की बै	ठक की सूचना	Colony, New Delhi-110024	4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/व		9DL2003PTC122891	
करने में मदद करे।		वे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सै		एतदद्वारा सचना दी जाती है कि भारतीय प्रति	भूति एवं विनिमय मण्डल (सूचीकरण दायित्व और	whereas it has proved to the satisfaction of		ऋणधारक का लिमिटेड लाप	रबिलिटी	1	
डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर गृह	आदि सहित कोविड—19	से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरक	गर के सभी		यम 47 (1) (ए) के साथ पठित विनियम 29 के	this court that you, the above named accused/ /accused persons can't be served in the		पहचान संख्या			
सचिव ने लिखा था कि साइबर	नियमों और समी सावधा	नियों का पालन करना अनिवार्य है			ठक शुक्रवार, 29 जनवरी, 2021 को आयोजित की	ordinary way of service. hence this	5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के	पंजीकृत पंजी. कार्यालयः	322, डीएलएफ टावर बी,	
				जायेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ	15 64849375 10 10 10 10 10	proclamation under 82 of code of criminal		कार्यालय तथा प्रधान कार्याल	य (यदि जसोला, डिस्ट्रिक	ट सेन्टर, नई दिल्ली-110025	
सुरक्षा के लिए सरकार वर्तमान में	सुरक्षा हेल्पलाइन न	io 182 इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंo	o 139	1. 31 दिसम्बर , 2020 को समाप्त तिमाही	/ नौमाही के लिए कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय	procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally		कोई हो) का पता	(आईएन)		
जारी बेहतर व्यवस्था का अनुपालन			4	परिणामों पर विचार एवं स्वीकृत किया ज		before this court on 17-02-2021 at 10.00 a.m. or	6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया सम	गपन की 21 दिसम्बर, 20	20	
कर रही है। सूत्रों ने कहा कि	INGO AND	उत्तर रेलव		 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कम्पनी व 	हे इक्विटी शेयर पूंजी पर तृतीय अंतरिम लाभांश की	within 30 days from the date of publication of	0.	तिथि			
उन्होंने चुनाव आयोग को आश्वस्त	पर हमें फॉलो करें	अापकी सुविधा - हमारा ध्ये		घोषणा पर विचार किया जायेगा ।	R. N.	this proclamation, take notice that, in case of		कॉगोरेन नगाधारक का गरी	गाणान २१ दिगाला २०	20 (आदेश 12.01.2021 को प्राप्त	
		हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर	र मिलें	उक्त सुचना को कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् _थ	www.vaibhavglobal.com और स्टॉक एक्सचेज की	default on your part to appear as directed above the said case will be heard and	/.	शारा का पार शुरू होने की तिथि	.समापन् 21 दिसम्बर, 20	20 (आदर्श 12.01.2021 की प्राप्त	
किया है कि केवल टीकाकरण के	म्राहको	की सेवा में मुस्कान के साथ			www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है।	determined as per law, in your absence	8	शुरू हान का ताल	(ss)		
लिए डाटा का इस्तेमाल किया]	स्थान : जयपुर	कृते वैभव ग्लोबल लिमिटेड	for details logon to: https://highcourtchd.gov.ir	8.	परिसमापक के रूप में	कार्यरत श्री अरुण कुमार	गोयल	
जाएगा। सूत्रों ने कहा कि चुनाव		***	MAX	दिनांक : 15 जनवरी, 2021	हस्ताक्षर	/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC_LUDHIANA		इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का न	ाम तथा IBBI/IPA-00	1/IP-P01325/2019-	
आयोग ने विस्तृत विचार-विमर्श के			Healthcare	• यह सूचना अंग्रेजी प्रारूप का रूपांतरण है।	सुशील शर्मा (कंपनी सचिव) FCS: 6535		ę	पंजीकरण संख्या	2020/12575	1	
e l	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10803003093094		PC3. 0555	Criminal Courts, Ludhiana		बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक	स्त्र मन सी २०० सिनेन	निवार विकास 110005	
बाद चार जनवरी को गृह सचिव		गपत्र सं. आईएनसी-26		• HDB एचडीबी फाइ	ोंशियल सर्विसेज लिमिटेड कब्जा सूचना	In The Court Of Sh. Ramesh Kumar JMIC	9.	बाड म पंजाकृत पारसमापक तथा ईमेलः	· · · · · ·		
को लिखा कि उसने टीकाकरण		ायमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपाल		पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल,		Ludhiana NEXT DATE: 19-02-2021 Next date, purpose of case, orders and judgments as	3	· ·	arung1008@		
अभियान में 'पूरी सहायता' करने	केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय	निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के	न्त्र समक्ष	शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस, 19,	पंचकुइयाँ नगर, भारत नगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली–110001	well as other case information is available on	10.			गेसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेंन्ट्स	
का निर्णय किया है। साथ ही	कम्पनी अधिनियम. 2013 क	गे धारा 13 की उप−धारा (4) तथा कम्प न	नी (निगमन)	2	प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पूनर्निर्माण	http://www.incongreat.com/ M/s Welkin India Incorporation Vs.				कॉम्प्लैक्स, 24, वीर सावरकर	
		30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) उ) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के	M/s Aryan Vill And Resort		ईमेल		मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092	
सरकार से कहा कि यह सुनिश्चित		ляп			्र आतं प्रातमूति हित (प्रवतन) नियम, 2002 के नियम 3 के पयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को कथित सुचना में उल्लिखित	publication issued to: 1. M/s aryan vill and			liquidator.ar	inits@gmail.com	
किया जाए कि डाटा का इस्तेमाल		ापा िकिनेन तिल्लान के प्रेलान कि ()			पंचान में नाच चाणत कंजदारा का कायत सूचना में अल्लाखत 11गतों, प्रभारों एवं व्ययों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि	resort address - through its partners manoj	11	दावे जमा करने की अंतिम वि	तेथि 11.02.2021		
पूरी तरह से केवल टीकाकरण		लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ''ए			ए माँग सुचना जारी की थी। कथित कर्जदार/सह–कर्जदार के	kumar @ manoj kumar goyal and neeru kumari	L	1			
उद्देश्य के लिए किया जाएगा।	पंचशील पार्क, उ	नई दिल्ली–110017'' में है, के मामले प		55	रा कर्जदार/सह–कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती	alias neeru goyal carrying on its business at village dhaipal, near jodhan, pakhowal road,	एतदह	ारा सूचित किया जाता है	कि राष्ट्रीय कम्पनी वि	वेधि अधिकरण, मंडल पीठ,	
			गविदक कम्पनी		साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत इसे	idh 2. Manoj kumar @ manoj goyal s/o hans raj	•			स सैल्स प्राईवेट लिमिटेड	
उन्होंने बताया कि आयोग ने कहा	एतद्द्वारा आम जनता को सचि	त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षे	क्षेत्र (एनसीटी)		उसके साथ उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया	3. Neeru kumari @ neeru goyal w/o manoj				` I	
है कि टीकाकरण अभियान समाप्त		' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित			द्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी	kumar @ manoj goyal both r/o h.no 39 block a parshant vihar, near pvr cinema, delhi partner			।दश ।दया ह। यह अ	ादेश 12 जनवरी, 2021 को	
होते ही स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा		ए 15 जनवरी, 2021 को आयोजित असाध		जाती है और सम्पत्ति के साथ लेन–देन सम्बद्ध तिथि	। से भावी ब्याज, लागत तथा प्रभारों सहित यहाँ निर्दिष्ट राशि	of m/s aryan villa and resort llp	प्राप्त हु	ई ।			
डाटा को मिटा दिया जाना चाहिए।		,		हेतु एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्र	भार का विषय होगा। कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानतियों का	whereas it has proved to the satisfaction of this	एतदुद्व	ारा एरिनिट्स सैल्स प्रा ई	ईवेट लिमिटेड के र	टेकधारकों को निर्देश दिया	
• •		गुसार कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएश		विवरण, ऋण खाता संख्या, ऋण की राशि, प्रतिभूति व	h विवरण, माँग सूचना की तिथि, दावाकृत राशि; कब्जा करने	court that you, the above named accused/ /accused persons can't be served in the ordinary	· · ·	• ~	•	मापक के पास 11 फरवरी,	
सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग	S S	नियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत य		की तिथि नीचे दी गयी है :		way of service. Hence this proclamation under 82		•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
के कुछ वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय	सरकार, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक	में निहित, के पास आवेदन करने का प्रस्त	ताव करती है।	क. 1) कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का न	म एवं पता;	of code of criminal procedure is hereby issued		को या उससे पूर्व अपने व			
गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य	कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय	के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व	व्यक्ति का हित		श; 4) प्रतिभूतियों का विवरण; 5) माँग सूचना की	against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-02-	फाइनॉनि	संयल क्रेडीटर्स केवल इले	क्ट्रॉनिक पद्धति से हं	ो अपने दावे का प्रमाण जमा	
मंत्रालय के नोडल अधिकारियों के		-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)		तिथि; 6) दावाकृत राशि रु. में; 7) क		2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date	कर सव	कते हैं। अन्य सभी क्रेडीव	टर्स प्रमाण के साथ	व्यक्तिगत या डाक द्वारा या	
		अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल			तथा पता : मोहन लाल, रोशन लाल, अश्वनी कुमार, रीत	of publication of this proclamation. take notice	दलेक्टॉ	निक माध्यमों से अपने दावे	ो का प्रमाण जमा कर	सकते हैं।	
संपर्क में रहेंगे।					र, सभी निवासी 46-47, मार्केट नं. 1, एनआईटी फरीदाबाद,	that in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard		। गलत अथवा भ्रामक प्रम			
		साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से			द-121001, ऋण खाता सं . 702104; ऋण राशि : रु.	and determined as per law, in your absence. for	1 ·				
``		11 आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए			न हजार चार सौ दस मात्र); 4) प्रतिभूति का विवरण :	details logon to : https://highcourtchd.gov.in/?trs	तिथिः	15.01.2021	परिसम	ापक का नाम एवं पताः	
गुजरात में 161	📕 द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति 🕯	क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2र	रा तल, पं. दीन		द-121001 का सम्पूर्ण भाग, माप 500 वर्ग गज, सम्पत्ति की	=district_notice&district=Ludhiana JMIC_Ludhiana	रथानः	दिल्ली		अरुण कुमार गोयल	
				सीमाएं : पूर्व : सड़क, पश्चिम : स्टाल सं. 3, उ	नग र उटाल में ४७ मोडनलाल की मम्पनि टोशांग र उटाली	Juno Loomana	22			•	
		भो कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003 में जम	मा कर या जमा								
	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ	•	मा कर या जमा	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु.	minur Br IQ Union Bank		४६ गोलस्य नग	-	निन्दी गनग	
केंद्रों से	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीउ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे	जें:	मा कर या जमा	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा	यूनियन वैक Ø Union Bank		े 65, सेक्टर 7ए,		बिक्री सूचना	
ुकेंद्रों से	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ	नें: ई दिल्ली-110017''		सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु.	यूनियन केंक O Union Bank		65, सेक्टर 7ए, हरियाणा-121006		बिक्री सूचना सम्पत्तियों के लिये	
	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीउ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे	नेंः ई दिल्ली-110017'' कृत्ते	एवं के लिये	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021.	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की	SATE COLONIA	फरीदाबाद,	हरियाणा-121006	अचल	सम्पत्तियों के लिये	
केंद्रों से टीकाकरण	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीउ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे	नें: ई दिल्ली-110017''	्एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथ ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि	फरीदाबाद, मावली, 2002	हरियाणा-121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों	अचल के साथ पठित वित्तीय प	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के	
केंद्रों से टीकाकरण	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीउ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे	नेंः ई दिल्ली-110017'' कृत्ते	एवं के लिये	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021.	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथ ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र	फरीदाबाद, मावली, 2002 तभूति हित प्रवर्ष	हरियाणा-121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत	अचल के साथ पठित वित्तीय प अचल परिसम्पत्तियों की	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना	
ु केंद्रों से टीकाकरण अभियान की	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे ''एन–110, पंचशील पार्क, नई	नेंः ई दिल्ली-110017'' कृत्ते	्एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशोष कुमार (9999260180, अरुण यादव	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ	फरीदाखाद, मावली, 2002 तभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त कारी द्वारा रचन	हरियाणा-121006 के नियम ८ (८) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी	अचल के साथ पठित वित्तीय प अचल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास पि चे वर्णित ऋणधारक(कों) ए	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ	
ु केंद्रों से टीकाकरण अभियान की	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीउ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे	नें: ई दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प	्एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384)	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवर्त (कों) तथा गारन्त कारी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि को	हरियाणा-121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो	अचल के साथ पठित वित्तीय प अचल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास पि चे वर्णित ऋणधारक(कों) ए	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ	
केंद्रों से टीकाकरण	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे ''एन–110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली	नें: ई दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के लिए वृग्पया सम्पर्क कर 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली,	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवर्त (कों) तथा गारन्त कारी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि को	हरियाणा-121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो	अचल के साथ पठित वित्तीय प अचल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास पि चे वर्णित ऋणधारक(कों) ए	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ	
ु केंद्रों से टीकाकरण अभियान की	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे ''एन–110, पंचशील पार्क, नई	नें: ई दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384)	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त कारी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि को	हरियाणा-121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो	अचल के साथ पठित वित्तीय प अचल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे ''एन–110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021	नें: ई दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव ा सं.: ए 52003	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के लिए वृग्पया सम्पर्क कर 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली,	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत ऑ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण	फरीदाखाद, मावली, 2002 कभूति हित प्रवर्त कों) तथा गारन्त कोंरी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि को नीचे दिया गया	हरियाणा-121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि तिमक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: अचल सम्पत्ति	अचल के साथ पठित वित्तीय प अचल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बकाया राशि	
ु केंद्रों से टीकाकरण अभियान की	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे ''एन–110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021	नें: ई दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव ा सं.: ए 52003	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क कर 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 तभूति हित प्रवर्त (कों) तथा गारन्त कों) तथा गारन्त कों तथा गरान वे वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीव	हरियाणा–121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: अचल सम्पत्ति इ. नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे	अचल के साथ पठित वित्तीय प अचल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास कि चे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी क का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के णु रावत के स्वामित्व में भू	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि जीतर, रु. 14,66,010/- र्षि एवं के आगे का ब्याज,	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी _{अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)।}	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे ''एन–110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021	नें: ई दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव ा सं.: ए 52003	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क कर 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा	फरीदाखाद, मावली, 2002 तभूति हित प्रवर्त कों) तथा गारन्त कों) तथा गारन्त कोंगे दिया गया नीचे दिया गया न. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीद भवन	हरियाणा–121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि तस्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> इ. नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे - आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग	अचल के साथ पठित वित्तीय प अचल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास कि चे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी क का विवरण । सारण, जवाहर कॉलोनी के णु रावत के स्वामित्व में भू 450 वर्ग फीट का सभी भ	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि जीतर, रु. 14,66,010/- रूमीतर, रु. 14,66,010/- रूमी एवं के आगे का ब्याज, गि तथा लागत एवं खर्चे	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेज ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगर	नें: दिल्ली-110017'' एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव ा सं.: ए 52003	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम,	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा गरतविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशांष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी 1 आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन]	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल	फरीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त कों) तथा गारन्त कों) तथा गारन्त कों वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीद भवन ट नं. 2, हिस्स	हरियाणा–121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि तमक कब्जा किया गया है, की नी ते ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> ह नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज द्गबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे जवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ा। चौहदीः उत्तरः 15'' चौड़ा रोड,	अचल के साथ पठित वित्तीय प अचल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के पु रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिणः अन्य खुला प्लॉट, ज	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि जीतर, रु. 14,66,010/- रूमीतर, रु. 14,66,010/- रूमी एवं के आगे का ब्याज, गि तथा लागत एवं खर्चे	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगर नियम 30	नें: दिल्ली-110017'' एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के) के अनुपालन में]	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव ा सं.: ए 52003	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ विर्ह्या पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क कर 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ारतविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा	फरीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त कों) तथा गारन्त कों) तथा गारन्त कों वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीद भवन ट नं. 2, हिस्स	हरियाणा–121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि तमक कब्जा किया गया है, की नी ते ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> ह नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज द्गबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे जवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ा। चौहदीः उत्तरः 15'' चौड़ा रोड,	अचल के साथ पठित वित्तीय प अचल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के पु रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिणः अन्य खुला प्लॉट, ज	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि जीतर, रु. 14,66,010/- रूमीतर, रु. 14,66,010/- रूमी एवं के आगे का ब्याज, गि तथा लागत एवं खर्चे	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगर नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय	नें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के) के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAX Healthcare के समक्ष	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री दि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा गरतविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशांष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र ाय, भारत सरकार के समक्ष	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त कोरी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि के नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीद भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किशा (2.00 से 3.00	हरियाणा–121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं: <u>अचल सम्पत्ति</u> दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे तबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे तबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे न आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ा। चौहदीः उत्तरः 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वै	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास कि चे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी क का विवरण । सारण, जवाहर कॉलोनी के णु रावत के स्वामित्व में भू 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिणः अन्य खुला प्लॉट, प् ल का मकान	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि जीतर, रु. 14,66,010/- रूमीतर, रु. 14,66,010/- रूमी एवं के आगे का ब्याज, गि तथा लागत एवं खर्चे	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की शुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन–110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगर नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013	तें: दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता अाईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के) के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क कर 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 व	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी—26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र ाय, भारत सरकार के समक्ष ही धारा 13 की उपधारा (4) एवं	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त कोरी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि के नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीव भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (2.00 से 3.00 व ग्यारह हजार म	हरियाणा–121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि तमक कब्जा किया गया है, की नी ते ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> ह नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज द्वाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे न आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता। चौहद्दीः उत्तरः 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे नात्र)	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास कि चे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी क का विवरण । सारण, जवाहर कॉलोनी के णु रावत के स्वामित्व में भू 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिणः अन्य खुला प्लॉट, प् ल का मकान	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि जीतर, रु. 14,66,010/- रूमीतर, रु. 14,66,010/- रूमी एवं के आगे का ब्याज, गि तथा लागत एवं खर्चे	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की शुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन–110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगर नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013	नें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के जे अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क कर 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 व	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा गरतविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशांष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र ाय, भारत सरकार के समक्ष	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त को री दिरा रचन वे वर्णित तिथि के नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीव भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश 2.00 से 3.00 इ ग्यारह हजार म (रुपये दो लाख	हरियाणा–121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: ज्याल सम्पत्ति है: ज्याल सम्पत्ति दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे त्वाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे वात्र, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे त्वाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे वात्र, वका मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे तात्र) ब इकसठ हजार मात्र)	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण त सारण, जवाहर कॉलोनी के एपु रावत के स्वामित्व में भू 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिणः अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ)	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि जीतर, रु. 14,66,010/- र्षूमि एवं के आगे का ब्याज, गग तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन–110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगर नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013	तें: दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता अाईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के) के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क कर 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 क	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्रों आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र ाय, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सारण कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 तभूति हित प्रवत् (कों) तथा गारन् को र्वारा रचन वे वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीव भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश 2.00 से 3.00 द्व ग्यारह हजार म (रुपये दो लाख T https://ww	हरियाणा-121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> ने दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता चौहदीः उत्तरा 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे तात्र) ब इकसठ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण का विवरण साराण, जवाहर कॉलोनी के पु रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ)	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि ज्यितर, रु. 14,66,010/- गूमि एवं के आगे का ब्याज, गा तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की अध्मियान की गुज्रात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन–110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगर नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013	नें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के जे अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क कर 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 क	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी—26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र ाय, भारत सरकार के समक्ष ही धारा 13 की उपधारा (4) एवं	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 तभूति हित प्रवत् (कों) तथा गारन् को र्वारा रचन वे वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीव भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश 2.00 से 3.00 द्व ग्यारह हजार म (रुपये दो लाख T https://ww	हरियाणा-121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> ने दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता चौहदीः उत्तरा 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे तात्र) ब इकसठ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण का विवरण साराण, जवाहर कॉलोनी के पु रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ)	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि ज्यितर, रु. 14,66,010/- गूमि एवं के आगे का ब्याज, गा तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की अभियान की गुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा।	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगर नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207	नें: दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी 5) के क्लॉज	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क कर 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 क कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 निप्पॉन आयल पंप के	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्रों आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र ाय, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सारण कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 तभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त को री दिरा रचन वे वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीव भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश 2.00 से 3.00 द ग्यारह हजार म (रुपये दो लाख T https://ww	हरियाणा-121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> ने दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता चौहदीः उत्तरा 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे तात्र) ब इकसठ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण का विवरण साराण, जवाहर कॉलोनी के पु रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ)	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि ज्यितर, रु. 14,66,010/- गूमि एवं के आगे का ब्याज, गा तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की अध्मियान की गुज्रात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजी कराएं या पंजीकृत डाक से भेज ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स f	तें: दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी 5) के क्लॉज	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृ विरसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 व कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 निष्मॉन आयल पंप के	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र ाय, भारत सरकार के समक्ष ही धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टावर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क,	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,000 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, उ देखें।	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 तभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त को री दिरा रचन वे वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीव भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश 2.00 से 3.00 द ग्यारह हजार म (रुपये दो लाख T https://ww	हरियाणा-121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> ने दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता चौहदीः उत्तरा 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे तात्र) ब इकसठ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण का विवरण साराण, जवाहर कॉलोनी के पु रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ)	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि ज्वितर, रु. 14,66,010/- र्षूमि एवं के आगे का ब्याज, गग तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की अध्रियान की युज्रात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजी कराएं या पंजीकृत डाक से भेज ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स f	हें दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में	एवं के लिये प्रिंटल लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त्र सं.: ए 52003 MAXX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी () के क्लॉज य ''एन–110,	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ विर्ह्या एछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 निष्मॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड .	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशोष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य. भारत सरकार के समक्ष ही धारा 13 की उपधारा (4) एवं) के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में , टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत , मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय : 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें।	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 तभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त को री दिरा रचन वे वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीव भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश 2.00 से 3.00 द ग्यारह हजार म (रुपये दो लाख T https://ww	हरियाणा-121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> ने दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता चौहदीः उत्तरा 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे तात्र) ब इकसठ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण का विवरण साराण, जवाहर कॉलोनी के पु रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ)	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि के आगे का ब्याज, गा तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री .in//english/Tender/View All /auctionhome/ibapi/index.jsp	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की अभियान की गुरुआत होगी आहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगस नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स f पंचशील पार्क, नई दिल्ली-	 तें: दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ 	एवं के लिये ग्रीटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव ा सं.: ए 52003 MAXX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी 5) के क्लॉज य ''एन-110, ावेदक कम्पनी	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ विर्ह्या एछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 निष्मॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड .	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र ाय, भारत सरकार के समक्ष ही धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टावर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क,	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सारण कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें।	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त को री द्वारा रचन वे वर्णित तिथि के नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट त. गुरदेव प्लॉट मेचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट त. गुरदेव प्लॉट मेचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट त. ग	हरियाणा–121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ते ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> है: <u>अचल सम्पत्ति</u> है: <u>अचल सम्पत्ति</u> है: <u>अचल सम्पत्ति</u> ते न. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज द्वाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे त्वाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे त्वाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे विवाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे विवाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे विवाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे त्वाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे के का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे तात्र) ब इकसठ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये https://www	अचल के साथ पठित वित्तीय प अचल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास दि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के एगु रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिणः अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ)	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि के आगे का ब्याज, गा तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री .in//english/Tender/View All /auctionhome/ibapi/index.jsp	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की अभियान की गुरुआत के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई ''एन-110, पंचशील पार्क, नई सिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्न पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि	हें दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के जे अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी ह	एवं के लिये प्रिंटल लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAXX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी 5) के क्लॉज य ''एन–110, ावेदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी)	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ विर्ह्या एछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 निष्मॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड .	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशोष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य. भारत सरकार के समक्ष ही धारा 13 की उपधारा (4) एवं) के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में , टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत , मकान सं. 274, प्ल मैजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,610,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद	फरीदाखाद, मावली, 2002 क्भूति हित प्रवस् (कों) तथा गारन् को वर्णित तिथि को नीचे दिया गया व गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीद भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (रुपये दो लाख 1 https://ww गगिन तथा बोली	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं: <u>अचल सम्पत्ति</u> त्वाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे त्वाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे न आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे न आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे न आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता। चौहदीः उत्तरः 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे तत्व, सिनर्जी टॉवर,	अचल के साथ पठित वित्तीय प जियल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास कि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी त का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के पु रावत के स्वामित्व में भू 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ)	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि ज्भीतर, रु. 14,66,010/- गूमि एवं के आगे का ब्याज, गा तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की अभियान की उज्ज्य होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगस नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स f पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य	 तें: द्विल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लेमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी ध र'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि	एवं के लिये प्रेटल लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी 5) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ विंग्सों पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 व कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 निष्मॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड, सीआईएन: U2912	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज । 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र ाय, भारत सरकार के समक्ष ही धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टावर बी–2, रपेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत , मकान सं. 274, प्ल मैजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 की आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद	फरीदाखाद, मावली, 2002 तभूति हित प्रवस् (कों) तथा गारन् (कों) तथा गारन् को वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट त. जुरदेव प्लॉट त. ज	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> है: <u>अचल सम्पत्ति</u> है: <u>अचल सम्पत्ति</u> है: <u>अचल सम्पत्ति</u> है: <u>अचल सम्पत्ति</u> त्वाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे व इकसउ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये https://www	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) 7.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com	सम्पत्तियों के लियेसिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।बिकाया राशि के आगे का ब्याज, गि तथा लागत एवं खर्चे पूर्वः श्री.in//english/Tender/View All /auctionhome/ibapi/index.jspप्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडियाफब्जा सूचना म s(1) देखें]	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की अभियान की उज्ज्य होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रियत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स f पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने	 तें: दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 सिंट मन) नियमावली, 2014 के जे अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी ध प' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगि	एवं के लिये प्रिंटल लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAXX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी द) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण	 सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृः विर्त्सी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 के पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे लि 	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज । 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य. भारत सरकार के समक्ष ही धारा 13 की उपधारा (4) एवं के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना ह निप्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्त मे नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मैजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद	फरीदाखाद, मावली, 2002 तभूति हित प्रवस् (कों) तथा गारन् को वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट त. जुरदेव प्लॉट त. ज	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> है: <u>अचल सम्पत्ति हैं</u> नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज द्वावाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता चौहदी: उत्तर 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे तात्र) ब इकसठ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) 7.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com	सम्पत्तियों के लियेसिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।बिकाया राशि के आगे का ब्याज, गि तथा लागत एवं खर्चे पूर्वः श्री.in/english/Tender/View All /auctionhome/ibapi/index.jspप्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडियाएकजा सूचना म s(1) देखें] ारसी प्राइवेट लिमिटेड (आरएआरसी 031	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की अभियान की अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रियत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स f पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने	 तें: द्विल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लेमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी ध र'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि	एवं के लिये प्रिंटल लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAXX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी द) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृ विरसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 क कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 निष्मॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड, सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि ('यह कंपनी') केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्रीं आशींष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में , टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निप्यॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम,	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्त में म प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद	पर्रसेदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवस् (कों) तथा गारन्त कारी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट ; जवाहर फरीद भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किशन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किशन (रुपये दो लाख् 1 https://ww गिन तथा बोली करण एवं पुनर्निमा अधिकृत प्राधिकार्र ग अर्जित की हैं।	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे - आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे - आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे - आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे - आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे - आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता चौहद्दीः उत्तरः 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वै नात्र) ब इकसठ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www	अचल के साथ पठित वित्तीय प जियल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी क का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के णु रावत के स्वामित्व में भू 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com ह निय .mstcecommerce.com	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि जीतर, रु. 14,66,010/- रूपि एवं के आगे का ब्याज, गा तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की अभियान की उभियान की उभियान की उभियान की रुपुरुआत होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई ''एन-110, पंचशील पार्क, नई तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स f पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त	 तें: दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षे 4'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगि ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑ	एवं के लिये प्रेटल लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी 5) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण ॉफ एसोसिएशन	 सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृ विर्त्सी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 के पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड . सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि ('यह कंपनी') केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ 	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निष्णॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्त मे मि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत , मकान सं. 274, प्ल मैजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,610,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 त्स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभू ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यर) का से मूल ऋणदाता मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आस्ति एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200	पर्रसेदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवस् (कों) तथा गारन् कारी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि के नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीद भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किशन (रुपये दो लाख 1 https://ww गिन तथा बोली •62, नोएडा करण एवं पुनर्निमा अधिकृत प्राधिकार्र ग आर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं: <u>अचल सम्पत्ति हैं</u> द नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे न आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे न आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे न आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता। चौहदीः उत्तर: 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वै त्तात्र) ब इकसठ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के तियमों के स्तिये त्यावर, (उ.प्र.)–201309 णि एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम ो है। यह कि रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम् त (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3	अचल के साथ पठित वित्तीय प जियल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास कि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी त का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भू 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com ह निय . 2002 के तहत रिलायंस एआ ान कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12)	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के जिने सूचना रिसम्पत्तियों के इं-नीलामी बिक्री सूचना रिस्ती/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि जीतर, रु. 14,66,010/- रूपि एवं के आगे का ब्याज, ाग तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री .in//english/Tender/View All /auctionhome/ibapi/index.jsp प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एप्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्रा सूचना म $8(1)$ देखें] ारसी प्राइवेट लिमिटेड (आरएआरसी 031 मेंट डीड दिनांक 24.03.2017 के माध्यम कारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रतिभूतिकरण	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की शुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्नि पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए	 तें: दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 जिं मन) नियमावली, 2014 के जिं के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा तिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 4'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगि ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 	एवं के लिये प्रेटल लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी द) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण ॉफ एसोसिएशन के अंतर्गत यह	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृ विरसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 निष्मॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड, सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि ('यह कंपनी') केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी T आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टावर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निष्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का 'कर्नाटक राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्त मे प्र प्रतद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत , मकान सं. 274, प्ल मैजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,610,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 त्स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभू ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यर) का से मूल ऋणदाता मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आस्ति एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 वर्णित कर्जदारों से सुचना में उल्लिखित राशि का कथित	पर्रादाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवस् (कों) तथा गारन् कारी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि के नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीद भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किशन (रुपये दो लाख् 1 https://ww गिन तथा बोली करण एवं पुनर्निम अधिकृत प्राधिकार्र गँ अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पूचनाओं की प्रापि	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे न आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे न आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे न आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता। चौहदीः उत्तरः 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे त्वात्र) ब इकसठ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के तियमों के लिये https://www के तियमों के स्विये https://	अचल के साथ पठित वित्तीय प जियल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास कि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी त का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भू 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com ह वियय . 2002 के तहत रिलायंस एआ ान कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) जि तर पुनर्भुगतान करने को कहते	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना रिखी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि के भीतर, रु. 14,66,010/- रूपि एवं के आगे का ब्याज, ाग तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री 	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की उजित के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई ''एन-110, पंचशील पार्क, नई रिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्न पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति ह	 तें: दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षे 4'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगि ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑ	एवं के लिये प्रेटल लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी द) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण ॉफ एसोसिएशन के अंतर्गत यह	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृ विसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री दि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 किपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 निष्पॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोइना रोड सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि ('यह कंपनी') केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा गारतविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशींष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टावर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निष्णॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का किर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्त मे मि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत , मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,610,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 त्स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभू ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यर) का से मूल ऋणदाता मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आस्ति एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवस् (कों) तथा गारन्त कों) तथा गारन्त कोंगे तथा गारन्त कोंगे तथा गारन्त कोंगेत तिथि कों नीचे दिया गया व गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीत मवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (रुपये दो लाख ा https://ww गिन तथा बोली करण एवं पुनर्निम आधकृत प्राधिकर्ति तथा प्रतिभूति हित पूचनाओं की प्राप्ति न में असफल	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है ति तात्मक कब्जा किया गया है, की नी ते ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं: <u>अचल सम्पत्ति</u> द नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे न- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता। चौहदीः उत्तरः 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे नत्र) ब इकसठ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के तियमों के लिये https://www	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास दि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के णु रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिणः अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com ह नियन . 2002 के तहत रिलायंस एअ ान कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) तर पुनर्भुगतान करने को कहते ांधककर्ताओं को और जनसाम	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के इं-नीलामी बिक्री सूचना ग रवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बकाया राशि क्ताया राशि त्रीतर, रु. 14,66,010/– र्षूमि एवं के आगे का ब्याज, ाग तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री 	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की शुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगस नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स f पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क्ष	 तें: दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 जिं मन) नियमावली, 2014 के जिं के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त वि की वयम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लेमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 1' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगि ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आवं 	एवं के लिये प्रेटल लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAXX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी 5) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी)) रंवर्तित करने के जित असाधारण ॉफ एसोसिएशन के अंतर्गत यह वेदन करने का	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृ विसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री दि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 किपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 निष्पॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोइना रोड सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि ('यह कंपनी') केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी T आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टावर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निष्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का 'कर्नाटक राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्त) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतदद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये न आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत , मकान सं. 274, प्ल मैजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभू टूस्ट के टूस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरा, का से मूल ऋणदाता मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आस्ति एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं द्वारा राशि के प्रविग्न अधोहस्ताक्षरी ने कथित आधानियम के नियम 8 के साथ लिया है।	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त को री दारा रचन वे वर्णित तिथि के नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट त.	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है ति तात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं: <u>अचल सम्पत्ति</u> ते , दुर्स्याणा में स्थित श्रीमती से त्वाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती से ज्वाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती से त्वाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती से त्वाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती से स्वतः, हरियाणा में स्थित श्रीमती से त्वात्र) क नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये त्वात्म ते (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 त की तिथि से साठ (60) दिनों के भी रहने के कारण, कर्जदार/जमानतियों/ब धेनियम की धारा 13(4) के तहत उसे	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास दि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के एपु रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिणः अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com क साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com विवय . 2002 के तहत रिलायंस एआ त युनर्भुगतान करने को कहते धककर्ताओं को और जनसाम । प्रदत्त शक्तियों के उपयोग नी	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के इं-नीलामी बिक्री सूचना रिवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि के आगे का ब्याज, गा तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री .tin//english/Tender/View All /auctionhome/ibapi/index.jsp प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्रजा सूचना म 8(1) देखें] रिसी प्राइवेट लिमिटेड (आरएआरसी 031 मेंट डीड दिनांक 24.03.2017 के माध्यम कारी ने वित्तीय आरितयों के प्रतिभूतिकरण के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे हुए मांग सूचना जारी की। ान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि वे वर्णित तिथि पर सम्पत्ति का कब्जा कर	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की उद्युरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे।	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स f पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय क	 तें: दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा तथा तत्तरिया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी के परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगि ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आवे के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी 	एवं के लिये प्रिंत के लिये प्रिंत लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव त सं: ए 52003 MAAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी 5) के क्लॉज य ''एन-110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण ॉफ एसोसिएशन के अंतर्गत यह वेदन करने का विदन का हित	 सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित क तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आखु किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 के पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड. सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि ('यह कंपनी') केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम जाप 	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा गारतविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशींष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टावर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निष्णॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का किर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्त) मि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वयूली के लिये न आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शतौं के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आर्तियों के प्रतिभू ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) का से मूल ऋणदाता मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आर् एं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि के क्रिंग अधोहत्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ ल्या है। विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हा राशि के प्रति	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त को रा रा रचन वे वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट त. गुरदेव प्लॉट तथा के 3.00 त. कर्ण एवं पुनार्नमा अधिकृत प्राधिकार्र त. या प्रतिभूति हित पूचनाओं की प्रापि न में असफल ज् पठित कथित आधि	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है ति तात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं: <u>अचल सम्पत्ति हैं</u> द नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज द्वाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे त- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता। चौहद्दी: उत्तर: 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे तात्र) ब इकसउ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये त्याद्र त (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 त की तिथि से साठ (60) दिनों के भी रहने के कारण, कर्जदार/जमानतियों/ब धनियम की धारा 13(4) के तहत उसे	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास दि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के एपु रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिणः अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) 7.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) 7.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com क साथ (1002 के तहत रिलायंस एआ ान कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) ते र पुनर्भुगतान करने को कहते धककर्ताओं को और जनसाम । प्रदत्त शक्तियों के उपयोग नी ग	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के इं-नीलामी बिक्री सूचना रिवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बकाया राशि त्रं भीतर, रु. 14,66,010/- रू. भीतर, रु. 14,66,010/- प्रिम् एवं के आगे का ब्याज, ाग तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री 	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की उडुफ् आत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगस नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 201 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्ग पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ज	 तें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के जे अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 1' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगि ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आव के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) 	एवं के लिये प्रेटल लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी 5) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी)) रेवर्तित करने के जित असाधारण ॉफ एसोसिएशन के अंतर्गत यह वेदन करने का व्यक्ति का हित) पर निवेशक	 सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित क तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृः किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री दि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी (निगमन) नियम, 2013 के पंजीकृत कार्यालय ये मंत्राल कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 निष्पॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि ('यह कंपनी') केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम जाप कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावि 	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा गरतविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिग्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशोष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी 1 आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र 14, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा, इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निष्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का 'कर्नाटक राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष वन में संसोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। त स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्त) मि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वयूली के लिये न आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण <u>ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम</u> स्रणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 त्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आर्तियों के प्रतिभू ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) का से मूल ऋणदाता मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आर् राष्ठित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हारा राशि के पुनर्भुग अधोहत्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को और राशि तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसंट रीकंस्ट्र	फरीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त को रा तथा गारन्त को रा दिरा रचन वे वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट त. गुरदेव प्लॉट करण से 3.00 वे न्यारह हजार म (रुपये दो लाख त करण एवं पुनर्निर्मा अधिकृत प्राधिकार्र ग अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पूचनाओं की प्राप्ति जनसामान्य को एत शन कम्पनी लिमि	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं: <u>अचल सम्पत्ति हैं</u> द नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता। चौहद्दी: उत्तर: 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे तत्र) ब इकसउ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के तियमों के लिये https://www के तियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये की क्य त (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 त की तिथि से साठ (र्ज01 दनां के भी रहने के कारण, कर्जदार/जमानतियों/ब धनियम की धारा 13(4) के तहत उस् रेड (मैग्मा आरएआरसी 031 ट्रस्ट के	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास दि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) 7.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com ह के साथ) 7.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com दिमिये के साथ पठित धारा 13(12) के साथ पठित धारा 13(13) के साथ पठित धारा 13(13) के साथ पठित धारा 13(13) के साथ पठित धारा 13(13) के साथ पठित धारा 13(13)	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के जिये रिसम्पत्तियों के इं-नीलामी बिक्री सूचना रिवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बकाया राशि त्रीतर, रु. 14,66,010/- र्षूमि एवं के आगे का ब्याज, ाग तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री 	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की उज्जित होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्न पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय न	 तें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 म्न) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त वि नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा तिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष म'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगि ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आवं के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) ाथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल 	एवं के लिये प्रिंत के लिये प्रिंत लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव त सं: ए 52003 MAAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी (एनसीनि) के क्लॉज य ''एन-110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण ॉफ एसोसिएशन के अंतर्गत यह वेदन करने का विदन का हित) पर निवेशक लय में आवेदक	 सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क कर 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 क कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड , सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम ज्ञाप कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावि प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो ती 	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा गरतविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम पट किया जाता है। : श्री आशोष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी r आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य. भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में , टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा, इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना के निप्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का 'कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष ल में संसोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। त स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रपन्न भरकर MCA-21 पोर्टल	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्त) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत , मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 त्यान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रति <u>प्र</u> स् क्टर '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रति <u>प्र</u> रूपे <u>प</u> ्रनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हारा राशि के पुन्रभू अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को और राशि तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र	पर्रसेदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त (कों) तथा गारन्त को वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीत भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (रुपये दो लाख् तथा प्रति इ जार म (रुपये दो लाख् तथा प्रति इ जा म (रुपये दो लाख् तथा प्रतिभूति हित प्रवत की हैं। तथा प्रतिभूति हित प्रवत की प्रता की प्राप्त मनसामान्य को एत शन कम्पनी लिमिटेड वे करण एवं पुनर्निर्मा अधिकृत प्राधिकार्र ग अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित प्रवत कथित ऑप्त	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: जचल सम्पत्ति है: जचल सम्पत्ति है द नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज द्वाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे - आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता चौहदी: उत्तर: 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे नात्र) ब इकसउ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के तियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये की क्यात्म उत्त त (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 त की तिथि से साठ (60) दिनों के भी रहने के कारण, कर्जदार/जमानतियों/ब धेनियम की धारा 13(4) के तहत उसे म्यत्तियों से किसी प्रकार का संव्य टेड (मैग्मा आरएआरसी 031 ट्रस्ट के म्यत्तियों से किसी प्रकार का संव्य टेड (मैग्मा आरएआरसी 031 ट्रस्ट के	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के जिये रिसम्पत्तियों के इं-नीलामी बिक्री सूचना रिवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि के आगे का ब्याज, गा तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री 	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की उफ्तआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगस नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 201 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्ग पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क प्रत्वाव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ज प्रभावित होता हो, वे एमसीए शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के	तें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क् 4'' में उसके पंजीकृत कार्यालय के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगि ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आव के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) धवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल द साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि	एवं के लिये प्रिंत के लिये प्रिंत लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAAX स्वितिस का तथा कंपनी हे) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण रेवर्तित करने के जित असाधारण रेवर्तित करने के जित असाधारण रेवर्तित करने का विदन करने का वेदन करने का वेदन करने का वेदन करने का द्यक्ति का हित) पर निवेशक लय में आवेदक र से चौदह दिनों	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आख़ किसी पूछताछ के लिए कृपया समयक कर 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्रात कंपनी (निगमन) नियम, 2013 क कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 विप्पॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544 सेक्टर – 49, सोहना रोड सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम जाप कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावि प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो ती (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज क	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. वयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध व्याज । 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किवा जाता है। : श्री आशोष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं) के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना के निष्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का 'कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष ान में संसोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। ता स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रपत्र मरकर MCA-21 पोर्टल र सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्त) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये न आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण रूणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत , मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 त्यान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिर्भू रूरट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) का से मूल ऋणदाता मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आस्ति प्रं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 वर्णित कर्जदार/जमानतियों,बंधककर्ताओं हारा राशि के पुनर्भुग अधोहस्ताक्षरी ने कथित आधिनियम के नियम 8 के साथ लंया है। विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को और राशि तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसंट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों को और जनसा	पर्रसेदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त (कों) तथा गारन्त को वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीत भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (रुपये दो लाख् तथा प्रति इ जार म (रुपये दो लाख् तथा प्रति इ जा म (रुपये दो लाख् तथा प्रतिभूति हित प्रवत की हैं। तथा प्रतिभूति हित प्रवत की प्रता की प्राप्त मनसामान्य को एत शन कम्पनी लिमिटेड वे करण एवं पुनर्निर्मा अधिकृत प्राधिकार्र ग अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित प्रवत कथित ऑप्त	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: जचल सम्पत्ति है: जचल सम्पत्ति है द नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज द्वाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे - आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता चौहदी: उत्तर: 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे नात्र) ब इकसउ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के तियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये की क्यात्म उत्त त (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 त की तिथि से साठ (60) दिनों के भी रहने के कारण, कर्जदार/जमानतियों/ब धेनियम की धारा 13(4) के तहत उसे म्यत्तियों से किसी प्रकार का संव्य टेड (मैग्मा आरएआरसी 031 ट्रस्ट के म्यत्तियों से किसी प्रकार का संव्य टेड (मैग्मा आरएआरसी 031 ट्रस्ट के	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के जिये रिसम्पत्तियों के इं-नीलामी बिक्री सूचना रिवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि के आगे का ब्याज, गा तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री 	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की उफ्तआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगस नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 201 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्ग पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क प्रत्वाव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ज प्रभावित होता हो, वे एमसीए शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के	 तें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मिन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त वि की नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा तिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 4'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगि ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आवं के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) ाथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल 	एवं के लिये प्रिंत के लिये प्रिंत लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAAX स्वितिस का तथा कंपनी हे) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण रेवर्तित करने के जित असाधारण रेवर्तित करने के जित असाधारण रेवर्तित करने का विदन करने का वेदन करने का वेदन करने का वेदन करने का द्यक्ति का हित) पर निवेशक लय में आवेदक र से चौदह दिनों	 सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पॅंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ विरुसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/धी दि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्रात कंपनी अधिनियम, 2013 व कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 केंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 केंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड . सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम झाए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तादि प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो f (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज व हित का प्रकार और उसके विरोघ का कार 	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज । 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशंष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 00HR2015FTC057330 सूचना क निप्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का 'कर्नाटक राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष ान में संसोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। Iत स्थानांतरण में यदि कित्ती व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रपन्न भरकर MCA-21 पोर्टल र सकता है या एक शपथ पन्न जिसमे उनके ण उत्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्त) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत , मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 त्यान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रति <u>प्र</u> स् क्टर '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रति <u>प्र</u> रूपे <u>प</u> ्रनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हारा राशि के पुन्रभू अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को और राशि तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र	पर्रसेदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त (कों) तथा गारन्त को वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीत भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (रुपये दो लाख् तथा प्रति इ जार म (रुपये दो लाख् तथा प्रति इ जा म (रुपये दो लाख् तथा प्रतिभूति हित प्रवत की हैं। तथा प्रतिभूति हित प्रवत की प्रता की प्राप्त मनसामान्य को एत शन कम्पनी लिमिटेड वे करण एवं पुनर्निर्मा अधिकृत प्राधिकार्र ग अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित प्रवत कथित ऑप्त	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है वि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: जचल सम्पत्ति है: जचल सम्पत्ति है द नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज द्वाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे - आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता चौहदी: उत्तर: 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे नात्र) ब इकसउ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के तियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये की क्यात्म उत्त त (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 त की तिथि से साठ (60) दिनों के भी रहने के कारण, कर्जदार/जमानतियों/ब धेनियम की धारा 13(4) के तहत उसे म्यत्तियों से किसी प्रकार का संव्य टेड (मैग्मा आरएआरसी 031 ट्रस्ट के म्यत्तियों से किसी प्रकार का संव्य टेड (मैग्मा आरएआरसी 031 ट्रस्ट के	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के जिये रिसम्पत्तियों के इं-नीलामी बिक्री सूचना रिवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि के आगे का ब्याज, गा तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री 	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण गुजरात में 161 केंद्रों से शुरू होगा	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्न पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क परवर्तन होता हो, वे एमसीप शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के	 तें: दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा तिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 4'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोति ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आवं के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) थवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल कार्या उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल कार्या उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि ते तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख 	एवं के लिये प्रिंत के लिये प्रिंत लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव प्रं.: ए 52003 MAAX से समक्ष तथा कंपनी के समक्ष तथा कंपनी के समक्ष तथा कंपनी के कलॉज य ''एन-110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रवर्तित करने के जित असाधारण ॉफ एसोसिएशन के अंतर्गत यह वेदन करने का व्यक्ति का हित) पर निवेशक लय में आवेदक पर निवेशक लय में आवेदक र से चौदह दिनों करते हुए एक	 सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पॅंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आख़ विरुसी यूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/शी दि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 व कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 निष्पॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड . सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम झाप कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावि प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो ती (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज क हित का प्रकार और उसके विरोध का कार निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की 	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज । 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशंष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी ा आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में , टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निप्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का 'कर्नाटक राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष ान में संसोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। ता स्थानांतरण में यदि कित्ती व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रपत्र मरकर MCA-21 पोर्टल रर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके ण उत्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति कोन्नेय तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक,	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्त न ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋण्धारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत औ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये न आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,6100 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभू टूरट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) का से मूल ऋणदाता मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आस्ति रॉण् कर्जदारों से यूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हारा राशि के पुनर्भुग अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को और राशि तथ्य उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र बिशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों कं औ जनसाम तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र	पर्रसेदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत्त (कों) तथा गारन्त (कों) तथा गारन्त को वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीत भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (रुपये दो लाख् तथा प्रति इ जार म (रुपये दो लाख् तथा प्रति इ जा म (रुपये दो लाख् तथा प्रतिभूति हित प्रवत की हैं। तथा प्रतिभूति हित प्रवत की प्रता की प्राप्त मनसामान्य को एत शन कम्पनी लिमिटेड वे करण एवं पुनर्निर्मा अधिकृत प्राधिकार्र ग अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित प्रवत कथित ऑप्त	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है ति तात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं: <u>अचल सम्पत्ति</u> द नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती से - आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता। चौहदीः उत्तरः 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे नत्र) ब इकसठ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये त्र प्रवर्तन अधिनियम त (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 त की तिथि से साठ (60) दिनों के भी रहने के कारण, कर्जदार/जमानतियों/ब धेनियम की धारा 13(4) के तहत उसे म्पत्तियों से किसी प्रकार का संव्यवहार के चार्ज के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास दि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के एपु रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिणः अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com व ह के साथ ह के तहत रिलायंस एआ न कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पन कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पन कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पन कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन यन करने की जे और जनसाम प्रदत्त शक्तियों के उपयोग नी यहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के जिसे इं-नीलामी बिक्री सूचना रिवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बकाया राशि त्रीतर, रु. 14,66,010/- र्षूमि एवं के आगे का ब्याज, ाग तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री 	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की युरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण गुजरात में 161 केंद्रों से शुरू होगा जब शनिवार को प्रधानमंत्री द्वारा	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रिपत्र सं. [कम्पनी (निगस नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स f पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति ध प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय द प्रभावित होता हो, वे एमसीप शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के के भीतर अपने हित की प्रकृति शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपर्न	 हें दिल्ली-110017'' कृते एएलपीएस हॉर्स्य सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लेमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी ध 4'' में उसके पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले मं - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी ध 4'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोग्ति ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आव के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) विवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) विवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी त तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, ब्रं 	एवं के लिये प्रिंव के लिये प्रिंत लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव प्रं.: ए 52003 MAAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी 5) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रवर्तित करने के जित असाधारण रिवर्तित करने के जित असाधारण रिवर्तित करने के जित असाधारण रिवर्तित करने के जित असाधारण रिवर्तित करने का विदन करने का व्यक्ति का हित) पर निवेशक लय में आवेदक र से चौदह दिनों करते हुए एक बी–2 विंग, 2रा	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृ विरुसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 व कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 विष्पॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544 सेक्टर – 49, सोहना रोड. सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम झाए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावि प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो त (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज व हित का प्रकार और उसके विरोघ का कार निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की उत्तरी क्षेत्र, बी –2 विंग, द्वितीय तल, पय	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज । 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशोष खुरमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी ा आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य. भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं 0 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निप्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष ान में संसोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। त स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर MCA-21 पोर्टल र सकता है या एक शपध पत्र जिसमे उनके ण उत्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति दोत्रीय तारीख से 14 दिनों के मीतर क्षेत्रीय निदेशक, विरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली –	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्त न ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋण्धारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत औ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये न आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,6100 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभू टूरट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) का से मूल ऋणदाता मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आस्ति रॉण् कर्जदारों से यूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हारा राशि के पुनर्भुग अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को और राशि तथ्य उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र बिशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों कं औ जनसाम तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवस् (कों) तथा गारन् कारी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि के नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीद भवन द नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (रुपये दो लाख् (रुपये दो लाख् तथा प्रति इं ा लिंद, नोएडा करण एवं पुनर्निम अधिकृत प्राधिकार्र ग अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पूचनाओं की प्रापि जनसामान्य को एत शन कम्पनी लिमिन् त्य को एतद्वारा स्म का के परिप्रेक्ष्य में क	के नियम s (6) के प्रावधानों के नियम s (6) के प्रावधानों तिन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है लि तात्मक कब्जा किया गया है, की नी ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: अचल सम्पत्ति के दर्ग. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती से तका सकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार के अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार के अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार के अं कियो मात्रार अपल, सिनर्जी टॉवर, (उ.प्र.)-201309 णि एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम ते की तिथि से साठ (60) दिनों के भी रह के रिलायंस एसरेट रीकंस्ट्रकर <td cols<="" td=""><td>अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी क का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) 7. unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) 7. unionbankofindia.co .mstcecommerce.com ह के साथ 7. 2002 के तहत रिलायंस एअ ा कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) तर पुनर्भुगतान करने को कहते धककर्ताओं को और जनसाम 1 प्रवत्त शक्तियों के उपयोग नी प्यहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध मांग सूचना की तिथि/</td><td>सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के जिये रिसम्पत्तियों के इं-नीलामी बिक्री सूचना रिवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बकाया राशि त्रीतर, रु. 14,66,010/– र्षूमि एवं के आगे का ब्याज, ाग तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री </td></td>	<td>अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी क का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) 7. unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) 7. unionbankofindia.co .mstcecommerce.com ह के साथ 7. 2002 के तहत रिलायंस एअ ा कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) तर पुनर्भुगतान करने को कहते धककर्ताओं को और जनसाम 1 प्रवत्त शक्तियों के उपयोग नी प्यहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध मांग सूचना की तिथि/</td> <td>सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के जिये रिसम्पत्तियों के इं-नीलामी बिक्री सूचना रिवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बकाया राशि त्रीतर, रु. 14,66,010/– र्षूमि एवं के आगे का ब्याज, ाग तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री </td>	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी क का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) 7. unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) 7. unionbankofindia.co .mstcecommerce.com ह के साथ 7. 2002 के तहत रिलायंस एअ ा कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) तर पुनर्भुगतान करने को कहते धककर्ताओं को और जनसाम 1 प्रवत्त शक्तियों के उपयोग नी प्यहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध मांग सूचना की तिथि/	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के जिये रिसम्पत्तियों के इं-नीलामी बिक्री सूचना रिवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बकाया राशि त्रीतर, रु. 14,66,010/– र्षूमि एवं के आगे का ब्याज, ाग तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की उडुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण गुजरात में 161 केंद्रों से शुरू होगा जब शनिवार को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रिपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स पि पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क परवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय क प्रभावित होता हो, वे एमसीप शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के के भीतर अपने हित की प्रकृति शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपने तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय	 तें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 को अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त वि की मामले में तथा तथा लमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ ति किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी के प' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोग्ति तव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आवं के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) व्यवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) व्यवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी दे तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, ब् प भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ल 	एवं के लिये प्रिंव के लिये प्रिंत लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव प्रं.: ए 52003 MAAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी 5) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रवर्तित करने के जित असाधारण रिवर्तित करने के जित असाधारण रिवर्तित करने के जित असाधारण रिवर्तित करने के जित असाधारण रिवर्तित करने का विदन करने का व्यक्ति का हित) पर निवेशक लय में आवेदक र से चौदह दिनों करते हुए एक बी–2 विंग, 2रा	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृ विरुसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निंगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 व कंपनी अधिनियम, 2013 व कंपनी अधिनियम, 2013 व कंपनी (निंगमन) नियम, 2014 के नियम 3 विप्यॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544 सेक्टर – 49, सोहना रोड , सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम झाए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावि प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो त (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज व हित का प्रकार और उसके विरोध का कार निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की उत्तरी क्षेत्र, बी –2 विंग, द्वितीय तल, पय 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सब	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज । 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशांघ कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी मा आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य. भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं ० के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 00HR2015FTC057330 सूचना क निष्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का 'कर्नाटक राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष ान में संसोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। ता स्थानांतरण में यदि कित्ती व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर MCA-21 पोर्टल र सकता है या एक शपध पत्र जिसमे उनके ण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, विरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – तो है या सुपुर्द कर सकते हैं तथा उसकी एक	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतदद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आं इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण प्रणधारक एवं गारन्टर का नाम ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मंजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,6100 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, रेखें। तिथि: 7.1.2021 त्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभू प्रूट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) का से मूल ऋणदाता मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आस्ति प्रंत कर्जदार/जमानतियों/बंधकर्ताओं हारा राशि के पुनर्भु अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम s के साथ लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों को और जनसाम तार्था तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों/बंधकर्कताओं को और राशि तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों को शक्तर्य प्रति प्रा तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों को और जनसाम तार्वत, आरितयों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सी कर. कर्जदार कार जमानतियों को और जनसाम तात्रत्र से कर्जदार और जमानतियों को और जनसाम तात्रत्र का स्वर्या के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रकान प्रतिभूत आरित्यों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सी	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत् (कों) तथा गारन्त को तथा गारन्त को तथा गारन्त को वर्णित तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट त. गुरदेव प्लॉट त. गुरदेव प्लॉट त. गुरदेव प्लॉट त. गुरदेव प्लॉट त. गुरदेव प्लॉट त. गुरदेव प्लॉट करण एवे पुनर्तिम अधिकृत प्राधिकार्र ग अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पूचनाओं की प्रापि ततथा प्रतिभूति हित पूचनाओं की प्रापि त करण एवं पुनर्निर्मा अधिकृत प्राधिकार्र ग अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पूचनाओं की प्रापि ननसामान्य को एत शन कम्पनी लिमिटेड वे ा के परिप्रेक्ष्य में व (अपने विधिक व प्राप्ने विधिक व के परिप्रेक्ष्य में व	हरियाणा–121006 के नियम 8 (6) के प्रावधानों र्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है जि तात्मक कब्जा किया गया है, की नी 1' 'जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो तें 'जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो तें 'जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: अचल सम्पत्ति है ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: अचल सम्पत्ति है ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: अचल सम्पत्ति है अचल सम्पत्ति है के स्वतः हरियाणा में स्थित श्रीमती रे ''ज मा कान, पश्चिमः श्री भजन ला अवल सम्पत्ति शे स्वतः वस्ति रिता परियमः श्री भजन ला अपल सं मात्र) w.ibapi.in तथा https://www क नियमों के लिये https://www क तिरावर्भ्त श्वितियम त वित्तिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम त (उ.प्र.) – 201309 जि एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 3 त की तिथि से राग (उ.00) दिनों के भी रहन के कारा, 13(4) के तहत उसे <	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास दि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com विविय ह 2002 के तहत रिलायंस एआ ान कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) ते साथ पठित धारा 13(12) ते साथ पठित धारा 13(12) ते साथ पठित धारा ने को कहते ांधककर्ताओं को और जनसाम 1 यवहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध मांग सूचना की तिथि/ कब्जा करने की तिथि/	सम्पतियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि के आगे का ब्याज, गा तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की शुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण गुजरात में 161 केंद्रों से शुरू होगा जब शनिवार को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा।' राज्य टीकाकरण	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्न पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क परवर्ता है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ज प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ज प्रभावित होता हो, वे एमसी। शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के के भीतर अपने हित की प्रकृति शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपने तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय जमा करें या जमा कराएं या पं	में: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में तथा लमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में तथा ति किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी ध त'' में उसके पंजीकृत कार्यालय के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगि ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आव के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) थवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) थवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि ते तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, ब् य भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ल जीकृत डाक से भेजेंः	एवं के लिये प्रिंव के लिये प्रिंत लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव प्रं.: ए 52003 MAAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी 5) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रवर्तित करने के जित असाधारण रिवर्तित करने के जित असाधारण रिवर्तित करने के जित असाधारण रिवर्तित करने के जित असाधारण रिवर्तित करने का विदन करने का व्यक्ति का हित) पर निवेशक लय में आवेदक र से चौदह दिनों करते हुए एक बी–2 विंग, 2रा	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित क तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृ हिंतसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करे 9350538386)/थी वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निंगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्रात कंपनी अधिनियम, 2013 क कंपनी (निंगमन) नियम, 2014 के नियम 3 विप्यॉन आयल पंप केंपजीकृत कार्यालय: यूनिट 544 सेक्टर – 49, सोहना रोड . सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी') केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम झाए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावि प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो ते (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज व हित का प्रकार और उसके विरोध का कार निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की उत्तरी क्षेत्र, बी –2 विंग, द्वितीय तल, पय 10003 पर पंजीकृत का हारा मेज सब पति आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखि	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानवे पैसे मात्र) तथा गरतविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम घट किया जाता है। : श्रें आशोष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आवन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी 1 आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं) के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टावर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निर्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का 'कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष ान में संसोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। त स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रपत्र मरकर MCA-21 पोर्टल तर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके ण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति केन्रीय तारीख से 14 दिनों के मीतर क्षेत्रीय निदेशक, विरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – त्रो है या सुपुर्द कर सकते हैं तथा उसकी एक त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी प्रेषित करें।	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतदृद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत औ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये ने आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत , मकान सं. 274, प्र मैंजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिधि एवं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,610,00 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहरताक्षरी ने वित्तीय आरितयों के प्रतिभू टूरट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) का से मूल ऋणदाता मैमा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आरित् ये पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हारा राशि के पुनर्भुग अधोहरताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ त्लया है। विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों/बंधककर्ताओं को और राशि तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र वर्शा रूप स कर्जदार और जमानतियों को और जनसम तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र वर्शा रूप पत्न के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र वशेतभूत आसितयों को जुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सी क.सं. कर्जदार/जमानतियों ,बंधकर्कराओं को और राति तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र वशेष रूप स कर्जदार और जमानतियों की और जनसम तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकेस्ट्र वराधिकारियों के माध्यम से), 2. श्रीमती वा कुमार पत्नी स्व. श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री शम्भ दया जन्नारियां के माध्यम से), 2. श्रीमती वा	पर्रसेदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत् (कों) तथा गारन्त को गीं तथा गारन्त को गीं तथा गारन्त को गीं दिया गया के गीं दिया गया के गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीत भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (उपये दे लाख तथा प्रति इजार म (रुपये दो लाख तथा प्रतिभूति हित प्रवित कथि की हैं। तथा प्रतिभूति हित भू चनाओं की प्रापि तथा प्रतिभूति हित भूवनाओं की प्रापि तथा प्रतिभूति हित भूवनाओं की प्रापि तथा प्रतिभूति हित भूवनाओं की प्रापि करण एवं पुनर्निर्मा अधिकृत प्राधिकार्र गाँ अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित भूवनाओं की प्रापि मनसामान्य को एत शन कम्पनी लिमिटेड वे ा के परिप्रेक्ष्य में व (अपने विधिक कर कुमार	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों त्र्न अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है जि तात्मक कब्जा किया गया है, की नी 1''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: अचल सम्पति है: अचल सम्पति है: अचल सम्पति है: अचल सम्पति के अंतर्गत का क्वा त्र ही रें जैर 55/8/2/3, मौज दां त. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दां त. 10 मिनट के स्वतः विस्तार वे वा को सिंग मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अवतः तिरितार्य सम्पत्ति मात्र) w.ibapi.in तथा https://www तल्त, सिनर्जी टॉवर, <	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास दि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के एपु रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिणः अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) 7.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) 7.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com दिमया 7.2002 के तहत रिलायंस एआ ान कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) ते रा पुनर्भुगतान करने को कहते धककर्ताओं को और जनसाम 1 प्रदत्त शक्तियों के उपयोग नी यवहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध मांग सूचना की तिथि/ कब्जा करने की तिथि/	सम्पतियों के लिये रिसम्पतियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि भीतर, क. 14,66,010/- पूर्म एवं के आगे का ब्याज, गात तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की उडुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण गुजरात में 161 केंद्रों से शुरू होगा जब शनिवार को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रिपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स पि पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क परवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय क प्रभावित होता हो, वे एमसीप शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के के भीतर अपने हित की प्रकृति शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपने तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय	में: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 म्न) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लेमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में तथा ति किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी के 4'' में उसके पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में तथा ति किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी के 4'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोग्ति ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आव के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) थवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल दि तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, ब् प भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ल जीकृत डाक से भेजें: नई दिल्ली- 110017''	एवं के लिये प्रिंत कि लिये तिटल लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं.: ए 52003 MAAX के समक्ष तथा कंपनी द) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी)) रेवर्तित करने के जित असाधारण रेवर्तित करने के जित असाधारण रेवर्तित करने के जित असाधारण रेवर्तित करने का विदन करने का विदन करने का व्यक्ति का हित) पर निवेशक लय में आवेदक त्य में आवेदक से चौदह दिनों करते हुए एक बी–2 विंग, 2रा ली–110003 में	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क कर्र 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निंगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 क कंपनी (निंगमन) नियम, 2014 के नियम अ निप्यॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड . सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे ति (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम जाप कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तादि प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो तो (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज क वित्ते को इस सूचना के प्रकाशन की उत्तरी क्षेत्र, बी -2 विंग, द्वितीय तल, पय 10003 पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सब पत्तीकृत कार्यालयः यूनिट 544, टावर बै	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ॥स्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज । 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्री आशांघ कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी मा आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य. भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं ० के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 00HR2015FTC057330 सूचना क निष्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का 'कर्नाटक राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष ान में संसोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। ता स्थानांतरण में यदि कित्ती व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर MCA-21 पोर्टल र सकता है या एक शपध पत्र जिसमे उनके ण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, विरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – तो है या सुपुर्द कर सकते हैं तथा उसकी एक	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतदृद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत औ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये ने आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत , मकान सं. 274, प्र मैंजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिधि एवं समय: 18.2.2021 की आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जम की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,000 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहरताक्षरी ने वित्तीय आरत्यों के प्रतिभूत प्रूट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत के युल्व न्हम्पाता मैमा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आरत् ये पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हारा राशि के पुनर्भुग अधोहरताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ त्रिया तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों/बंधककर्ताओं को और राशि तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र वशिष रूप से कर्जदार और जमानतियों को और जनसम तया उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों की और त्र राशि तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र वात्नेत्र आसितयों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सी क्र. कर्जदार/जमानति 1. 1. रस्व. श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री शम्भू दयाल उत्तराधिकारियों के माध्यम से), 2. श्रीमती वा कुमार पत्नी स्व. श्री रविन्दर कुमार, 3. श्री अं शर्मा, 4. श्री अनुज कुमार शर्मा पुत्र स्ती रहम रख श्रेर	पर्रसेदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत् (कों) तथा गारन्त को गीं तथा गारन्त को गीं तथा गारन्त को गीं दिया गया के गीं दिया गया के गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीत भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (उपये दे लाख तथा प्रति इजार म (रुपये दो लाख तथा प्रतिभूति हित प्रवित कथि की हैं। तथा प्रतिभूति हित भू चनाओं की प्रापि तथा प्रतिभूति हित भूवनाओं की प्रापि तथा प्रतिभूति हित भूवनाओं की प्रापि तथा प्रतिभूति हित भूवनाओं की प्रापि करण एवं पुनर्निर्मा अधिकृत प्राधिकार्र गाँ अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित भूवनाओं की प्रापि मनसामान्य को एत शन कम्पनी लिमिटेड वे ा के परिप्रेक्ष्य में व (अपने विधिक कर कुमार	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों तिन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है जि तात्मक कब्जा किया गया है, की नी 1''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो तें 'जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो तें 'जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: अचल सम्पति ''. दात, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे '- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दा चौहदी: उत्तर: 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे पा उत्तर201309 णि एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 3 त की तिथि से साठ (अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास दि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com विविय ह 2002 के तहत रिलायंस एआ ान कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) ते साथ पठित धारा 13(12) ते साथ पठित धारा 13(12) ते साथ पठित धारा ने को कहते ांधककर्ताओं को और जनसाम 1 यवहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध मांग सूचना की तिथि/ कब्जा करने की तिथि/	सम्पतियों के लिये सिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना परवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि के आगे का ब्याज, गा तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की शुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण गुजरात में 161 केंद्रों से शुरू होगा जब शनिवार को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा।' राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. नयन जानी ने कहा	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 201 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्न पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क परवर्ता है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ज प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ज प्रभावित होता हो, वे एमसीप शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के के भीतर अपने हित की प्रकृति शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपने तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय जमा करें या जमा कराएं या पं	 तें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 स्टिंग के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के की धारा 13 की उप-धारा (4) त की भागले में तथा तथा लेमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी के परिय के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगिताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आवं के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)) ध्यवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि ति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते कारणों का उल्लेख ते तिथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते कारणों का उल्लेख ते की कारणों का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते की का कारणी का उल्लेख ते की कारणों का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते कारणों का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते की कारण के कारणों का उल्लेख ते की कारण का कारण की तिथि जीकृत कार्या की कारण का उल्लेख ते की का कारणी का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते की कारणों का उल्लेख ते कारणों का उल्लेख ते की का कारण का उल्लेख ते की कारण का कारण का कारण का कारण का का	एवं के लिये प्रिंत के लिये प्रिंत लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं: ए 52003 MAAX के समक्ष तथा कंपनी के समक्ष तथा कंपनी के के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण ॉफ एसोसिएशन के अंतर्गत यह वेदन करने का व्यक्ति का हित) पर निवेशक लय में आवेदक त से चौदह दिनों करते हुए एक बी–2 विंग, 2रा ली–110003 में	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पॅतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के तिए कृपया सम्पर्क करे 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निंगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (निंगमन) नियम, 2014 के नियम अ निष्मॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड . सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम झाए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तादि प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो त (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज व हित का प्रकार और उसके विरोध का कार निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की उत्तरी क्षेत्र, वी -2 विंग, द्वितीय तल, पय 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सब प्रती आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखि पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544, टावर ब रोते क्रि सान्द्र, वी -2 विंग, द्वितीय तल, पय 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सब	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानवे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्रीं आशोष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आवन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी n आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य. भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं ० के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टावर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा, इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निप्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का 'कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष ल संसोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। त स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रत्र भरकर MCA-21 पोर्टल र सकता है या एक शपध्य प्रत्र जिसमे उनके ण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति केन्रीय तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, वरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – त्ते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं तथा उसकी एक त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी प्रेषित करें। –2, स्पेज ऑय टेक पार्क, सेक्टर –49, सोहना	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतदृद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत औ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये ने आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मैजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद इं-नीलामी की तिथिएं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जम की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,000 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, र देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वितीय आरितयों के प्रतिभू प्रंटर के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) का से मूल ऋणदाता मैमा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आरित एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हारा राशि के पुनर्भु अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ त्या है। कि कर्जदार सं कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं की और राशि तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों/बंधकर्काओं की और राशि तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों का क्रिय त्रात्तिकारियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सी करसं. कर्जदार/जमानतियों/वंधकर्त्राओ को और राशा तिया उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों को और जनसाम तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों को और जनसाम तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों को और जनसाम त्या कि तारियों के माध्यम से), 2. श्रीमती वा कुमार पत्ली रस्त श्री रविन्दर कुमार, 3. श्री अं धर्मा, 4. श्री अनुमतु कुमार भ्राम पुत्र श्र शर्म, 3. श्री अं	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवन् (कों) तथा गारन् को वीर्णत तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट त. गुरदेव प्लिस्त त. का प्रतिभूति हित स्व का एतद्वारा सम कम्पनी लिमिटेड वे त. के परिप्रेक्ष्य में त (अपने विधिक त. कुमार त. जुर्मार 5. ज	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों तेन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है जि तात्मक कब्जा किया गया है, की नी ो ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं: <u>अचल सम्पत्ति</u> हैं: <u>अचल सम्पत्ति</u> दां . 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे [- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता चौहदी: उत्तर: 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार वे तात्र) ब इकसउ हजार मात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये https://www	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास दि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com विविय ह 2002 के तहत रिलायंस एआ ान कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) ते साथ पठित धारा 13(12) ते साथ पठित धारा 13(12) ते साथ पठित धारा ने को कहते ांधककर्ताओं को और जनसाम 1 यवहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध मांग सूचना की तिथि/ कब्जा करने की तिथि/	सम्पतियों के लिये रिसम्पतियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि भीतर, क. 14,66,010/- पूर्म एवं के आगे का ब्याज, गात तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की गुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण गुजरात में 161 केंद्रों से शुरू होगा जब शनिवार को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा।' राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. नयन जानी ने कहा कि पहले चरण के लिए गुजरात	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 201 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्न पंचशील पार्क, नई दिल्ली- एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क परवर्ता है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ज प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ज प्रभावित होता हो, वे एमसीप शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के के भीतर अपने हित की प्रकृति शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपने तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय जमा करें या जमा कराएं या पं	में: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 म्न) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के की धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लेमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में तथा ति किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी के 4'' में उसके पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में तथा ति किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी के 4'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परि के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोग्ति ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आव के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) थवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्याल दि तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, ब् प भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ल जीकृत डाक से भेजें: नई दिल्ली- 110017''	एवं के लिये प्रिंत के लिये प्रिंत लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं: ए 52003 MAAX के समक्ष तथा कंपनी के समक्ष तथा कंपनी के के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण ॉफ एसोसिएशन के अंतर्गत यह वेदन करने का व्यक्ति का हित) पर निवेशक लय में आवेदक त से चौदह दिनों करते हुए एक बी–2 विंग, 2रा ली–110003 में	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पॅतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के तिए कृपया सम्पर्क करे 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निंगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (निंगमन) नियम, 2014 के नियम अ निष्मॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड . सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम झाए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तादि प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो त (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज व हित का प्रकार और उसके विरोध का कार निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की उत्तरी क्षेत्र, वी -2 विंग, द्वितीय तल, पय 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सब प्रती आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखि पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544, टावर ब रोते क्रि सान्द्र, वी -2 विंग, द्वितीय तल, पय 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सब	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानवे पैसे मात्र) तथा गरतविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम घट किया जाता है। : श्रें आशोष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आवन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी 1 आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य, भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं) के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टावर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निर्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का 'कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष ान में संसोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। त स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रपत्र मरकर MCA-21 पोर्टल तर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके ण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति केन्रीय तारीख से 14 दिनों के मीतर क्षेत्रीय निदेशक, विरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – त्रो है या सुपुर्द कर सकते हैं तथा उसकी एक त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी प्रेषित करें।	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतदृद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत औ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये ने आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत , मकान सं. 274, प्र मैंजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिधि एवं समय: 18.2.2021 की आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जम की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,000 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहरताक्षरी ने वित्तीय आरत्यों के प्रतिभूत प्रूट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत के युल्व न्हम्पाता मैमा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आरत् ये पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हारा राशि के पुनर्भुग अधोहरताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ त्रिया तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों/बंधककर्ताओं को और राशि तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र वशिष रूप से कर्जदार और जमानतियों को और जनसम तया उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों की और त्र राशि तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र वात्नेत्र आसितयों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सी क्र. कर्जदार/जमानति 1. 1. रस्व. श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री शम्भू दयाल उत्तराधिकारियों के माध्यम से), 2. श्रीमती वा कुमार पत्नी स्व. श्री रविन्दर कुमार, 3. श्री अं शर्मा, 4. श्री अनुज कुमार शर्मा पुत्र स्ती रहम रख श्रेर	पर्रसेदाखाद, मावली, 2002 तभूति हित प्रवन् (कों) तथा गारन् को वीर्णत तिथि को नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट त. गुरदेव प्लॉट तथा प्रति अगि तथा प्रति की हैं। तथा प्रतिभूति हित पुचनाओं की प्रापि तथा प्रतिभूति हित पूचनाओं की प्रापि तनसामान्य को एत स्व को एतद्वारा स्व कम्पनी लिमिटेड वे ा के परिप्रेक्ष्य में व (अपने विधिक कस्त कुमार व क्या र व कुमार 5. व	के नियम s (6) के प्रावधानों तेन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है जि तात्मक कब्जा किया गया है, की नी 1''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: अचल सम्पति दं नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दा चेत दर्तरा पि में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दा चेत दत्तरा दिरा श्र्वर्त श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार के कि. के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये प्रितर्ग करद्रवर स्वक्त त (प्रवर्तन अधिनियम का रह के रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रवर के स्वर्व कि	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास दि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी व का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के ए रावत के स्वामित्व में भ 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com विविय ह 2002 के तहत रिलायंस एआ ान कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) ते साथ पठित धारा 13(12) ते साथ पठित धारा 13(12) ते साथ पठित धारा ने को कहते ांधककर्ताओं को और जनसाम 1 यवहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध मांग सूचना की तिथि/ कब्जा करने की तिथि/	सम्पतियों के लिये रिसम्पतियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि भीतर, फ. 14,66,010/- पूमि एवं के आगे का ब्याज, गात तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण गुजरात में 161 केंद्रों से शुरू होगा जब शनिवार को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा।' राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. नयन जानी ने कहा कि पहले चरण के लिए गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने 4.31 लाख	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीअ कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 207 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्न पंचशील पार्क, नई दिल्ली एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति ध प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ज प्रभावित होता हो, वे एमसी शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के के भीतर अपने हित की प्रकृी शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनं तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय जमा करें या जमा कराएं या पं ''एन-110, पंचशील पार्क,	 तें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 स्टिंग के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के की धारा 13 की उप-धारा (4) त की भागले में तथा तथा लेमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी के परिय के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगिताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आवं के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)) ध्यवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि ति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते कारणों का उल्लेख ते तिथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते कारणों का उल्लेख ते की कारणों का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते की का कारणी का उल्लेख ते की कारणों का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते कारणों का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते की कारण के कारणों का उल्लेख ते की कारण का कारण की तिथि जीकृत कार्या की कारण का उल्लेख ते की का कारणी का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते की कारणों का उल्लेख ते कारणों का उल्लेख ते की का कारण का उल्लेख ते की कारण का कारण का कारण का कारण का का	एवं के लिये प्रिंत के लिये प्रिंत लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं: ए 52003 MAAX के समक्ष तथा कंपनी के समक्ष तथा कंपनी के के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण ॉफ एसोसिएशन के अंतर्गत यह वेदन करने का व्यक्ति का हित) पर निवेशक लय में आवेदक त से चौदह दिनों करते हुए एक बी–2 विंग, 2रा ली–110003 में	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पॅतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के तिए कृपया सम्पर्क करे 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निंगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (निंगमन) नियम, 2014 के नियम अ निष्मॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड . सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम झाए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तादि प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो त (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज व हित का प्रकार और उसके विरोध का कार निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की उत्तरी क्षेत्र, वी -2 विंग, द्वितीय तल, पय 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सब प्रती आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखि पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544, टावर ब रोते क्रि सान्द्र, वी -2 विंग, द्वितीय तल, पय 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सब	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानवे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्रीं आशोष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आवन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी n आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य. भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं ० के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टावर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा, इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निप्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का 'कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष ल संसोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। त स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रत्र भरकर MCA-21 पोर्टल र सकता है या एक शपध्य प्रत्र जिसमे उनके ण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति केन्रीय तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, वरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – त्ते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं तथा उसकी एक त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी प्रेषित करें। –2, स्पेज ऑय टेक पार्क, सेक्टर –49, सोहना	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतदृद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत औ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये ने आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मैजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद इं-नीलामी की तिथिएं समय: 18.2.2021 को आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जम की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,000 बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, र देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वितीय आरितयों के प्रतिभू प्रंटर के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) का से मूल ऋणदाता मैमा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आरित एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हारा राशि के पुनर्भु अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ त्या है। कि कर्जदार सं कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं की और राशि तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार/जमानतियों/बंधकर्काओं की और राशि तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों का क्रिय त्रात्तिकारियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सी करसं. कर्जदार/जमानतियों/वंधकर्त्राओ को और राशा तिया उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों को और जनसाम तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों को और जनसाम तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्र विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों को और जनसाम त्या कि तारियों के माध्यम से), 2. श्रीमती वा कुमार पत्ली रस्त श्री रविन्दर कुमार, 3. श्री अं धर्मा, 4. श्री अनुमतु कुमार भ्राम पुत्र श्र शर्म, 3. श्री अं	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत् (कों) तथा गारन् कारी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि के नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीद भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (अपने दे लाख तथा प्रतिभूति हित पुटन, नोएडा करण एवं पुनर्निर्मा अर्थिकृत प्राधिकार गँ अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पुटन नोएडा करण एवं पुनर्निर्मा अर्थिकृत प्राधिकार गँ अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पुटत कथित और तथा प्रतिभूति हित पुटत कथित और वनसामान्य को एत शन कम्पनी लिमिन् य को एतद्वारा सम का के परिप्रेक्ष्य में व (अपने विधिक कत कुमार वन्दर कुमार 5. व सोनल सोनिश वे	के नियम s (6) के प्रावधानों तेन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है लि तात्मक कब्जा किया गया है, की नी 1''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो हे: अचल सम्पति दं नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दावाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती से दावाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती से तावासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता चौहदीः उत्तर: 15'' चौड़ा रोड, न का मकान, पश्चिमः श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार के प्रा के तिथ्मे सात्र) w.ibapi.in तथा https://www के नियमों के लिये https://www के तिथि प्रति हित प्रवर्तन अधिनियम त (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 त की तिथि से साठ (60) दिनों के भी रहने के कारण, कर्जरार/जमा नतियों/ब धनियम की धारा 13(4) के तहत उसे क	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी क का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के एपु रावत के स्वामित्व में भू 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com ह वि प् (2002 के तहत रिलायंस एआ ान कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) तर पुनर्भुगतान करने को कहते धककर्ताओं को और जनसाम 1 यवहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध प्रता शक्तियों के उपयोग नी यवहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध पांग सूचना की तिथि/ 20.10.2020 12.01.2021	सम्पतियों के लिये रिसम्पतियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना तिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बिकाया राशि भीतर, र. 14,66,010/- पूमि एवं के आगे का ब्याज, गार तथा लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण गुजरात में 161 केंद्रों से शुरू होगा जब शनिवार को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा।' राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. नयन जानी ने कहा कि पहले चरण के लिए गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने 4.31 लाख	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजी कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (तिगमन) नियमावली, 2013 (तिगमन) नियमावली, 2013 (तिगमन) नियमावली, 2013 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्ति पंचशील पार्क, नई दिल्ली– एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति ध प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय कर प्रभावित होता हो, वे एमसी। शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के के भीतर अपने हित की प्रकृी शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपन तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय जमा करें या जमा कराएं या पं ''एन-110, पंचशील पार्क,	 तें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉर्स्प सदस्यता आईएनसी-26 स्टिंग के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के की धारा 13 की उप-धारा (4) त की भागले में तथा तथा लेमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में - आ त किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी के परिय के लिये 13 जनवरी, 2021 को आयोगिताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आवं के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)) ध्यवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि ति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते कारणों का उल्लेख ते तिथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते कारणों का उल्लेख ते की कारणों का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते की का कारणी का उल्लेख ते की कारणों का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते कारणों का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते आपत्त के कारणों का उल्लेख ते की कारण के कारणों का उल्लेख ते की कारण का कारण की तिथि जीकृत कार्या की कारण का उल्लेख ते की का कारणी का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते की कारणी का उल्लेख ते की कारणों का उल्लेख ते कारणों का उल्लेख ते की का कारण का उल्लेख ते की कारण का कारण का कारण का कारण का का	एवं के लिये प्रिंत के लिये प्रिंत लिमिटेड हस्ता./– रीतु कम्पनी सचिव त सं: ए 52003 MAX Healthcare के समक्ष तथा कंपनी 5) के क्लॉज य ''एन–110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण ॉफ एसोसिएशन के अंतर्गत यह वेदन करने का व्यक्ति का हित) पर निवेशक लय में आवेदक त से चौदह दिनों करते हुए एक बी–2 विंग, 2रा ली–110003 में	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पॅतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आवृ किसी पूछताछ के तिए कृपया सम्पर्क करे 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निंगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (निंगमन) नियम, 2014 के नियम अ निष्मॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544 सेक्टर - 49, सोहना रोड . सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम झाए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तादि प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो त (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज व हित का प्रकार और उसके विरोध का कार निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की उत्तरी क्षेत्र, वी -2 विंग, द्वितीय तल, पय 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सब प्रती आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखि पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544, टावर ब रोते क्रि सान्द्र, वी -2 विंग, द्वितीय तल, पय 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सब	20; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानवे पैसे मात्र) तथा सरविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम ष्ट किया जाता है। : श्रें आशोष कुमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड आधकृत प्राधिकारी ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड आधकृत प्राधिकारी ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड आधकृत प्राधिकारी त आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य, भारत सरकार के समक्ष ही धारा 13 की जपधारा (4) एवं 0 के उप-नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में . टावर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष ल में संसोधन की पुष्टि की मांग की गयी है। ता स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर MCA-21 पोर्टल र सकता है या एक शपध पत्र जिसमे उनके ण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति केंत्रीय तारीख से 14 दिनों के मीतर क्षेत्रीय निदेशक, विरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – त्वे हैं या सुपुर्द के पार्क, सेक्टर –49, सोहना ने-2, स्पेज ऑय टेक पार्क, सेक्टर –49, सोहना	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतदृदारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वयूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक: से. जीएसआत इंजी. एसोसिएट्स प्र संह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारत्र: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मैजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 की आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,000 बिक्री के बिरुत्त नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, र देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद रिथ: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद ***जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वितीय आर्तियों के प्रतिर्भ प्रेतर के ट्रस्ट के रूप में अपने क्षमता में मकर्यत.) का से पूल ऋणदाता मैमा हाउसिंग फाइनेंस से वितीय आरि रेखें पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हारा राशि के पुनर्भु- अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ तिथा तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रक्श- प्रांशि तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट् विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों/बंधककरर्ताओं को और जताधिकारियों के छड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सी क.स. कर्जदार/जमानतियों/बंधकर्त का और जतासा तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रक्शन ह जताधिकारियों के माध्यम से).2. श्रीमती वा कुसार पत्ली रब श्री रविन्दर कुमार, 9. श्री अं चुसार पत्ती स्व. श्री रविन्दर क	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत् (कों) तथा गारन् कारी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि के नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीद भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (अपने दे लाख तथा प्रतिभूति हित पुटन, नोएडा करण एवं पुनर्निर्मा अर्थिकृत प्राधिकार गँ अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पुटन नोएडा करण एवं पुनर्निर्मा अर्थिकृत प्राधिकार गँ अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पुटत कथित और तथा प्रतिभूति हित पुटत कथित और वनसामान्य को एत शन कम्पनी लिमिन् य को एतद्वारा सम का के परिप्रेक्ष्य में व (अपने विधिक कत कुमार वन्दर कुमार 5. व सोनल सोनिश वे	के नियम s (6) के प्रावधानों तेन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है जि तात्मक कब्जा किया गया है, की नी 1''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: अचल सम्पति दं नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दाबाद, हरियाणा में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दा चेत दर्तरा पि में स्थित श्रीमती रे ा- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग दा चेत दत्तरा दिरा श्र्वर्त श्री भजन ला अप. (10 मिनट के स्वतः विस्तार के कि. के नियमों के लिये https://www के नियमों के लिये प्रितर्ग करद्रवर स्वक्त त (प्रवर्तन अधिनियम का रह के रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रवर के स्वर्व कि	अचल के साथ पठित वित्तीय प जिवल परिसम्पत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी क का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के एपु रावत के स्वामित्व में भू 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com ह के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com वि किमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) तर पुनर्भुगतान करने को कहते धककर्ताओं को और जनसाम । प्रदत्त शक्तियों के उपयोग नी ववहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध मांग सूचना की तिथि 20.10.2020 12.01.2021	सम्पत्तियों के तिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना तिरंति/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। प्रतिर, रु. 14,66,010/- प्रिम एवं के आगे का ब्याज, प्रतिर, रु. 14,66,010/- प्रिम एवं के आगे का ब्याज, प्रतर, क. 14,66,010/- प्रिम एवं के आगे का ब्याज, प्रतं श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण गुजरात में 161 केंद्रों से शुरू होगा जब शनिवार को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा।' राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. नयन जानी ने कहा कि पहले चरण के लिए गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने 4.31 लाख	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजी कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (तिगमन) नियमावली, 2013 (तिगमन) नियमावली, 2013 (तिगमन) नियमावली, 2013 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्ति पंचशील पार्क, नई दिल्ली– एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति ध प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय कर प्रभावित होता हो, वे एमसी। शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के के भीतर अपने हित की प्रकृी शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपन तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय जमा करें या जमा कराएं या पं ''एन-110, पंचशील पार्क,	 तें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉस्प सदस्यता आईएनसी-26 जिंदी को इएनसी-26 जिंदी को अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के को धारा 13 की उप-धारा (4) त की धारा 13 की उप-धारा (4) त विमेटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में तथा लेमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में तथा लेमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय कात किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्र 4'' में उसके पंजीकृत कार्यालय के दिये 13 जनवरी, 2021 को आयोग्ति ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आव के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) वि वि तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख ते आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, ब् य भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ल जीकृत डाक से भेजेंः नई दिल्ली- 110017'' कृत्ते साकेत सिटी हॉस्पिय 	एवं के लिये प्रिंटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव त सं: ए 52003 MAAX कि समक्ष तथा कंपनी ह) के क्लॉज य ''एन-110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण र्मे एसोसिएशन के अंतर्गत यह वेदन करने का व्यक्ति का हित) पर निवेशक तय में आवेदक तर ते हुए एक बी-2 विंग, 2रा ली-110003 में एवं के लिये टिल्स लिमिटेड हस्ता./- पूनम मक्कर	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आख़ रिइसी पूछताछ के लिए कुएया समयंक कर 9350538386)/शी दि स्थान : दिल्ली, दिन्नांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निंगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 व कंपनी (निंगमन) नियम, 2014 के नियम 3 तिप्यॉन आयल पंप केंपनी (निंगमन) नियम, 2014 के नियम 3 तिप्यॉन आयल पंप केंपनी (निंगमन) नियम, 2014 के नियम 3 सिजाईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम झाण कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावि प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो त (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज व हित का प्रकार और उसके विरोध का कार निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की उत्तरी क्षेत्र, वी -2 विंग, द्वितीय तल, पय 110003 पर पंजीकृत ढाक द्वारा मेज सब प्रति आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखि पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544, टावर बै रोड, गुरुग्राम–122018, हरियाणा, इंडिया क्रिते 1	20;6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु बयालीस हजार आउ सौ बाईस एवं अट्ठानबे मैंसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज 17) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम पट किया जाता है। : श्रें आश्चोष ढुड्रमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य. भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं) के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में , टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निप्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष व संसंसायन की पुष्टि की मांग की नयी है। ति स्थानांतरण में यदि कित्ती व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रपन्न भरकर MCA-21 पोर्टल र सकता है या एक शपध पन्न जिसमे उनके ण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति केन्नेय रारीख से 14 दिनों कं मीतर क्षेत्रीय निदेशक, विरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ती – तरे है या सुयुर्द कर सकते है तथा उसकी एक त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी प्रेषित करें। ।–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, सेक्टर –49, सोहना ने–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, सेक्टर –49, सोहना ने–2, स्पेज साम पं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हस्सा/– कपिल शर्मा	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूति करण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आं इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारस्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल माँजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिधिएवं समय: 18.2.2021 को आस्क्षित मूल्य रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला आसक्षित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला आसक्षित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला आसक्षित नुप्स: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला आसक्षित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला आसक्षित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला अाक्षित नुप्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला अाक्षित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला अासित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला अासित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वी तीकर, प्री तिथ: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहरताक्षरी ने वितीय आस्तियों के प्रतिभू रे के द्रप्य के रुपये अं प्रतिभूत तिक्र का कि से मुल ऋणवताता मैम्पा डाउरियं फर बितीय आसि	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत् (कों) तथा गारन् कारी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि के नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीद भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (अपने दे लाख तथा प्रतिभूति हित पुटन, नोएडा करण एवं पुनर्निर्मा अर्थिकृत प्राधिकार गँ अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पुटन नोएडा करण एवं पुनर्निर्मा अर्थिकृत प्राधिकार गँ अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पुटत कथित और तथा प्रतिभूति हित पुटत कथित और वनसामान्य को एत शन कम्पनी लिमिन् य को एतद्वारा सम का के परिप्रेक्ष्य में व (अपने विधिक कत कुमार वन्दर कुमार 5. व सोनल सोनिश वे	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों तिन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है जि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: अचल सम्पति दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दां. 15'' चौड़ा रोड, वावासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता ममजन, पश्चिम मा श्री ता सम्पत्ति दित प्रवर्तन अधिनियम ता का स्तर्ग को रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रकर दात (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 त की तिथि से साठ (60) दिनों के भी रात की सिप्स प्रतेन आधिनियम ते की तिथि से साठ (60) दिनों के भी दातर्तन, आधिनियम, 2002 के नियम 3 त	अचल के साथ पठित वित्तीय प जियल परिसम्यत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी क का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के णु रावत के स्वामित्व में भू 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com वियिग् ह 2002 के तहत रिलायंस एआ ा कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) तर पुनर्भुगतान करने को कहते धककर्ताओं को और जनसाम 1 यवहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध मांग सूचना की तिथि 20.10.2020 12.01.2021 14.09.2020 12.01.2021	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बकाया राशि के आगे का ब्याज, गितर, क. 14,66,010/- पूर्म एवं के आगे का ब्याज, गत एवं खर्चे पूर्व: श्री प्राधकृत अधिकारी, यूर्व: श्री प्राधकृत अधिकारी, यूर्व: श्री प्राधकृत अधिकारी, यूर्व: श्री प्राधकृत अधिकारी, यूर्व: श्री प्राधकृत अधिकारी, यूर्तियना म 8(1) देखें] रासी प्राइवेट लिमिटेड (आरएआरसी 031 मं हे डी दिनांक 24.03.2017 के माध्यम् कारी ने वित्तीय आस्तियों के प्राराभूतिकरण काती है और सम्पत्तियों की । बितारी तर्थि पर सम्पत्ति का कब्जा कर जाती है और सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार मं का और साम्पत्तियों के साथ संव्यवहार राशि यां ते औ और आकृष्ट किया जाता है। बकाया राशि विकाया राता है।	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी आहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण गुजरात में 161 केंद्रों से शुरू होगा जब शनिवार को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा।' राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. नयन जानी ने कहा कि पहले चरण के लिए गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने 4.31 लाख स्वस्थ्य कर्मचारियों की पहचान की है, जिनमें डॉक्टर और नर्स	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजी कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (तिगमन) नियमावली, 2013 (तिगमन) नियमावली, 2013 (तिगमन) नियमावली, 2013 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्ति पंचशील पार्क, नई दिल्ली– एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति ध प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय कर प्रभावित होता हो, वे एमसी। शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के के भीतर अपने हित की प्रकृी शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपन तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय जमा करें या जमा कराएं या पं ''एन-110, पंचशील पार्क,	 तें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉस्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त वही धारा 13 की उप-धारा (4) त वही धारा 13 की उप-धारा (4) त वही धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लेमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में . आ ति किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 110017'' में है, के मामले में . आ ति किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 110017'' में है, के मामले में . आ ति किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 110017'' में है, के मामले में . आ ते किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 110017'' में है, के मामले में . आ ते किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 130017'' में है, के मामले में . आ ते किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 131017'' में है, के मामले में . आ ते किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी के स्थ प्रत्ता के पंजीकृत कार्याल के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) 12013 को झाम के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) 12013 की दिस्ति के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) 12013 को उल्लेख 1301ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, ब्र त तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख 1301ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, ब्र त भाकेत साकेत सिटी हॉस्पित साकेत सिटी हॉस्पित त	एवं के लिये प्रिंटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव त सं: ए 52003 MAAX के समक्ष तथा कंपनी के समक्ष तथा कंपनी के के कलॉज य ''एन-110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी)) रेवर्तित करने के जित असाधारण रॅक एसोसिएशन के अंतर्गत यह वेदन करने का व्यक्ति का हित) पर निवेशक लय में आवेदक करते हुए एक बी-2 विंग, 2रा ली-110003 में एवं के लिये हस्ता./- पूनम मक्कर कम्पनी सचिव	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आख़ किसो पूछताङ के लिए कृपया समयंक कर 9350538386)/श्री वि स्थान : दिल्ली, दिनांक : 15.01.2021 परूप संख्य [कंपनी (निगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्रात कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम अ निष्पॉन आयल पंप के पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544 सेक्टर – 49, सोहना रोड . सीआईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम झाप कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावि प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो त (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज व हित का प्रकार और उसके विरोध का कार निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की उत्तरी क्षेत्र, बी –2 विंग, द्वितीय तल, पय 110003 पर पंजीकृत ढाक द्वारा मेज सब प्रति आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखि पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544, टावर बै रोड, गुरुग्राम–122018, हरियाणा, इंडिया कुते 1	20;6) दावाकृत गरिए (फ. में) : 27.10.2020 तक रु बयालीस हजार आउ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज 17) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम प्रद किया जाता है। : श्रीं आश्चोष ढुरुपार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिभिटेड अधिकृत प्राधिकारी 	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतदृदारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वयूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक: से. जीएसआत इंजी. एसोसिएट्स प्र संह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारत्र: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल मैजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिथिएवं समय: 18.2.2021 की आरक्षित मूल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छब्बीस ला जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,000 बिक्री के बिरुत्त नियमों एवं शर्तों के लिये कृप Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, र देखें। तिथि: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद रिथ: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद ***जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वितीय आर्तियों के प्रतिर्भ प्रेतर के ट्रस्ट के रूप में अपने क्षमता में मकर्यत.) का से पूल ऋणदाता मैमा हाउसिंग फाइनेंस से वितीय आरि रेखें पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 200 वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं हारा राशि के पुनर्भु- अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ तिथा तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रक्श- प्रांशि तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट् विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों/बंधककरर्ताओं को और जताधिकारियों के छड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सी क.स. कर्जदार/जमानतियों/बंधकर्त का और जतासा तथा उस पर व्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रक्शन ह जताधिकारियों के माध्यम से).2. श्रीमती वा कुसार पत्ली रब श्री रविन्दर कुमार, 9. श्री अं चुसार पत्ती स्व. श्री रविन्दर क	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत् (कों) तथा गारन् कारी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि के नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीद भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (अपने दे लाख तथा प्रतिभूति हित पुटन, नोएडा करण एवं पुनर्निर्मा अर्थिकृत प्राधिकार गँ अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पुटन नोएडा करण एवं पुनर्निर्मा अर्थिकृत प्राधिकार गँ अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पुटत कथित और तथा प्रतिभूति हित पुटत कथित और वनसामान्य को एत शन कम्पनी लिमिन् य को एतद्वारा सम का के परिप्रेक्ष्य में व (अपने विधिक कत कुमार वन्दर कुमार 5. व सोनल सोनिश वे	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों तिन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है जि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: अचल सम्पति दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दां. 15'' चौड़ा रोड, वावासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता ममजन, पश्चिम मा श्री ता सम्पत्ति दित प्रवर्तन अधिनियम ता का स्तर्ग को रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रकर दात (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 त की तिथि से साठ (60) दिनों के भी रात की सिप्स प्रतेन आधिनियम ते की तिथि से साठ (60) दिनों के भी दातर्तन, आधिनियम, 2002 के नियम 3 त	अचल के साथ पठित वित्तीय प जियल परिसम्यत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी क का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के णु रावत के स्वामित्व में भू 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com वियिग् ह 2002 के तहत रिलायंस एआ ा कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) तर पुनर्भुगतान करने को कहते धककर्ताओं को और जनसाम 1 यवहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध मांग सूचना की तिथि 20.10.2020 12.01.2021 14.09.2020 12.01.2021	सम्पत्तियों के तिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना तिरंति/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। प्रतिर, रु. 14,66,010/- प्रिम एवं के आगे का ब्याज, प्रतिर, रु. 14,66,010/- प्रिम एवं के आगे का ब्याज, प्रतर, क. 14,66,010/- प्रिम एवं के आगे का ब्याज, प्रतं श्री	
केंद्रों से टीकाकरण अभियान की अभियान की युरुआत होगी अहमदाबाद, 15 जनवरी (भाषा)। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को कहा कि 16 जनवरी को देशव्यापी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के तहत राज्य में 161 केंद्रों से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल (टीकाकरण केंद्रों में एक) में कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद कर सकते हैं। वह शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। रूपाणी ने जामनगर में एक कार्यक्रम में कहा, 'कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण गुजरात में 161 केंद्रों से शुरू होगा जब शनिवार को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा।' राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. नयन जानी ने कहा कि पहले चरण के लिए गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने 4.31 लाख	दयाल अन्त्योदय भवन, सीजी कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें ''एन-110, पंचशील पार्क, नई स्थानः नई दिल्ली तिथिः 16.01.2021 प्रपत्र सं. [कम्पनी (निगम नियम 30 केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय कंपनी अधिनियम, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (निगमन) नियमावली, 2013 (तिगमन) नियमावली, 2013 (तिगमन) नियमावली, 2013 (तिगमन) नियमावली, 2013 साकेत सिटी हॉस्पिटल्स र्ति पंचशील पार्क, नई दिल्ली– एतद्द्वारा आम जनता को सूचि दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य लिये कंपनी को सक्षम बनाने आमसभा में पारित विशेष प्रस्त के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति ध प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय कर प्रभावित होता हो, वे एमसी। शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अ कंपनी को उसकी एक प्रति के के भीतर अपने हित की प्रकृी शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपन तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय जमा करें या जमा कराएं या पं ''एन-110, पंचशील पार्क,	 तें: दिल्ली-110017'' कृत्ते एएलपीएस हॉस्प सदस्यता आईएनसी-26 मन) नियमावली, 2014 के के अनुपालन में] निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) वे की धारा 13 की उप-धारा (4) त वही धारा 13 की उप-धारा (4) त वही धारा 13 की उप-धारा (4) त वही धारा 13 की उप-धारा (4) त 14 के नियम 30 के उप-नियम (5 (ए) के मामले में तथा लेमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 110017'' में है, के मामले में . आ ति किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 110017'' में है, के मामले में . आ ति किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 110017'' में है, के मामले में . आ ति किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 110017'' में है, के मामले में . आ ते किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 110017'' में है, के मामले में . आ ते किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 130017'' में है, के मामले में . आ ते किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्ष 131017'' में है, के मामले में . आ ते किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी के स्थ प्रत्ता के पंजीकृत कार्याल के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) 12013 को झाम के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) 12013 की दिस्ति के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी ए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) 12013 को उल्लेख 1301ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, ब्र त तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख 1301ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, ब्र त भाकेत साकेत सिटी हॉस्पित साकेत सिटी हॉस्पित त	एवं के लिये प्रिंटल लिमिटेड हस्ता./- रीतु कम्पनी सचिव त सं: ए 52003 MAAX कि समक्ष तथा कंपनी ह) के क्लॉज य ''एन-110, विदक कम्पनी क्षेत्र (एनसीटी) रेवर्तित करने के जित असाधारण र्मे एसोसिएशन के अंतर्गत यह वेदन करने का व्यक्ति का हित) पर निवेशक तय में आवेदक तर ते हुए एक बी-2 विंग, 2रा ली-110003 में एवं के लिये टिल्स लिमिटेड हस्ता./- पूनम मक्कर	सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.20 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित व तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध स की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आख़ रिइसी पूछताछ के लिए कुएया समयंक कर 9350538386)/शी दि स्थान : दिल्ली, दिन्नांक : 15.01.2021 प्ररूप संख्य [कंपनी (निंगमन) नियम, केन्द्रीय सरकार के समझ कारपोरेट कार्य मंत्राल कंपनी अधिनियम, 2013 व कंपनी (निंगमन) नियम, 2014 के नियम 3 तिप्यॉन आयल पंप केंपनी (निंगमन) नियम, 2014 के नियम 3 तिप्यॉन आयल पंप केंपनी (निंगमन) नियम, 2014 के नियम 3 सिजाईएन: U2912 आम जनता को यह सूचित किया जाता हे वि (यह कंपनी) केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय नि 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइ पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम झाण कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावि प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो त (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज व हित का प्रकार और उसके विरोध का कार निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की उत्तरी क्षेत्र, वी -2 विंग, द्वितीय तल, पय 110003 पर पंजीकृत ढाक द्वारा मेज सब प्रति आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखि पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 544, टावर बै रोड, गुरुग्राम–122018, हरियाणा, इंडिया क्रिते 1	20;6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु बयालीस हजार आउ सौ बाईस एवं अट्ठानबे मैंसे मात्र) तथा ास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज 17) कब्जा की मय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम पट किया जाता है। : श्रें आश्चोष ढुड्रमार (9999260180, अरुण यादव कास आनन्द (9711010384) ह./- कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिकृत प्राधिकारी I आईएनसी–26 2014 के नियम 30 के अधीन] प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र य. भारत सरकार के समक्ष ठी धारा 13 की उपधारा (4) एवं) के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंध में , टाबर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया 0HR2015FTC057330 सूचना क निप्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, ल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का कर्नाटक राज्य में स्थानांतरित करने के लिए असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष व संसंसायन की पुष्टि की मांग की नयी है। ति स्थानांतरण में यदि कित्ती व्यक्ति का हित नेवेशक शिकायत प्रपन्न भरकर MCA-21 पोर्टल र सकता है या एक शपध पन्न जिसमे उनके ण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति केन्नेय रारीख से 14 दिनों कं मीतर क्षेत्रीय निदेशक, विरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ती – तरे है या सुयुर्द कर सकते है तथा उसकी एक त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी प्रेषित करें। ।–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, सेक्टर –49, सोहना ने–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, सेक्टर –49, सोहना ने–2, स्पेज साम पं इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हस्सा/– कपिल शर्मा	प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नि प्रतिभूति करण एवं पुनर्निर्माण तथा प्र एतद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत आं इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नी आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्र सिंह रावत मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सार कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणा गारस्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्ल माँजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद ई-नीलामी की तिधिएवं समय: 18.2.2021 को आस्क्षित मूल्य रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला आसक्षित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला आसक्षित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला आसक्षित नुप्स: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला आसक्षित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला आसक्षित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला अाक्षित नुप्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला अाक्षित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला अासित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वीस ला अासित मुल्य: रु. 26,11,000 (रुपये छव्वी तीकर, प्री तिथ: 7.1.2021 स्थान: फरीदाबाद '''जैसा कि अधोहरताक्षरी ने वितीय आस्तियों के प्रतिभू रे के द्रप्य के रुपये अं प्रतिभूत तिक्र का कि से मुल ऋणवताता मैम्पा डाउरियं फर बितीय आसि	पत्ररीदाखाद, मावली, 2002 मभूति हित प्रवत् (कों) तथा गारन् कारी द्वारा रचन वे वर्णित तिथि के नीचे दिया गया त. गुरदेव प्लॉट , जवाहर फरीद भवन ट नं. 2, हिस्स हरियाणा किश (अपने दे लाख तथा प्रतिभूति हित पुटन, नोएडा करण एवं पुनर्निर्मा अर्थिकृत प्राधिकार गँ अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पुटन नोएडा करण एवं पुनर्निर्मा अर्थिकृत प्राधिकार गँ अर्जित की हैं। तथा प्रतिभूति हित पुटत कथित और तथा प्रतिभूति हित पुटत कथित और वनसामान्य को एत शन कम्पनी लिमिन् य को एतद्वारा सम का के परिप्रेक्ष्य में व (अपने विधिक कत कुमार वन्दर कुमार 5. व सोनल सोनिश वे	हरियाणा–121006 के नियम s (6) के प्रावधानों तिन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टर (रों) को सूचित किया जाता है जि ात्मक कब्जा किया गया है, की नी ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है: अचल सम्पति दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दनं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौज दां. 15'' चौड़ा रोड, वावासीय सम्पत्ति, माप लगभग ता ममजन, पश्चिम मा श्री ता सम्पत्ति दित प्रवर्तन अधिनियम ता का स्तर्ग को रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रकर दात (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 त की तिथि से साठ (60) दिनों के भी रात की सिप्स प्रतेन आधिनियम ते की तिथि से साठ (60) दिनों के भी दातर्तन, आधिनियम, 2002 के नियम 3 त	अचल के साथ पठित वित्तीय प जियल परिसम्यत्तियों की के प्रतिभूत क्रेडीटर के पास वि वे वर्णित ऋणधारक(कों) ए भी है'' तथा ''जो कुछ भी क का विवरण ा सारण, जवाहर कॉलोनी के णु रावत के स्वामित्व में भू 450 वर्ग फीट का सभी भ दक्षिण: अन्य खुला प्लॉट, प ल का मकान के साथ) र.unionbankofindia.co .mstcecommerce.com वियिग् ह 2002 के तहत रिलायंस एआ ा कम्पनी लिमिटेड ने एसाइन पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधि के साथ पठित धारा 13(12) तर पुनर्भुगतान करने को कहते धककर्ताओं को और जनसाम 1 यवहार न करने की चेतावनी दी ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता न करने की चेतावनी दी जाती 13 की उपधारा (8) के प्रावध मांग सूचना की तिथि 20.10.2020 12.01.2021 14.09.2020 12.01.2021	सम्पत्तियों के लिये रिसम्पत्तियों के ई-नीलामी बिक्री सूचना गेरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति वं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। बकाया राशि र भीतर, रु. 14,66,010/- प्रिम एवं के आगे का ब्याज, गा तथा प्रांतर, रु. 14,66,010/- प्रिम एवं के आगे का ब्याज, गा तथा प्रांतर, रु. 14,66,010/- प्रिम एवं के आगे का ब्याज, गा तथा प्रांतर, रु. 14,66,010/- प्रांत लागत एवं खर्चे पूर्व: श्री प्राधिकृत अधिकारी, यूर्व: श्री प्राधिकृत अधिकारी, यूतियना प्रार्थ के आप का ब्याज, प्रांत के अधिकारी, यूतियना प्रांत कि आर आइक्ट (आरएआरसी 031 में ठित्तीय आस्तियों के प्रार्थ आत्रित्रा कारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रार्थ, तिकरण के तहत प्रदत्त प्रक्तियों की । त्वाती तथि पर सम्पत्ति को क क्यीन होगा। त्वार्य की रे आकृष्ट किया जाता है। वार्य को और आकृष्ट किया जाता है। बकाया राष्टि 20.10.2020 तक रु. 30,16,347.43 (रुपये बयाल	

Months ended 31.12.2020 alongwith LimitedReview Report from Statutory Auditors, TradingWindow in equity shares will remain closed from01.01.2021 to 04.02.2021 for all insiders, andAny other matter with the permission of Chair.New DelhiSUMIT GUPTA - Director15.01.2021DIN: 06911742	Un-Audited Financial Results of Quarter & Nine Months ended 31.12.2020 alongwith Limited Review Report from Statutory Auditors, Trading Window in equity shares will remain closed from 01.01.2021 to 04.02.2021 for all insiders, and Any other matter with the permission of Chair. New Delhi Raj Kumar Gupta - Director 15.01.2021 DIN: 00074532	In The Court Of Sh. Gurdarshan Singh JMIC Ludhiana NEXT DATE: 17-02-2021 neat data, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.govt.in/ludhiana CNR NO: PBLD03-031279-2018 Kotak Mahindra Bank Vs. M/s S J Constructions
फोन: 91-141-2601020; फैक्स : 91-141-2 ई-मेल : investor_relations@vaibhavglob ब्वोर्ड की बैठव एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम अनुसरण में, कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक जायेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ 1. 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही / नी परिणामों पर विचार एवं स्वीकृत किया जायेग 2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कम्पनी के इति घोषणा पर विचार किया जायेगा। उक्त सूचना को कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् <u>www</u> वेबसाईट अर्थात् <u>www.bseindia.com</u> और <u>www</u> स्थान : जयपुर दिनांक : 15 जनवरी, 2021	टीवा, आदर्श नगर, जयपुर-302004 2605077; CIN: L36911RJ1989PLC004945; al.com; वेबसाइट : www.vaibhavglobal.com <u>क की सूचना</u> एवं विनिमय मण्डल (सूचीकरण दायित्व और 47 (1) (ए) के साथ पठित विनियम 29 के इणुक्रवार, 29 जनवरी, 2021 को आयोजित की माही के लिए कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय 11 वेबटी शेयर पूंजी पर तृतीय अंतरिम लाभांश की <u>.vaibhavglobal.com</u> और स्टॉक एक्सचेज की	Notice To,1. M/s S J Constructions Through Its Prop Ashish Sachdeva, Sachdeva Bhawan Joraphatak Road Dhanbad - 826001 (bihar) 2. Ashish Sachdeva Prop Of SJ Constructions, R/o Building No. A/389 2nd Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused /accused persons can't be served in the ordinary way of service. hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 17-02-2021 at 10.00 a.m. o within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the said case will be heard and determined as per law, in your absence for details logon to: https://highcourtchd.gov.il /?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC_LUDHIANA
• यह सूचना अंग्रेजी प्रारूप का रूपांतरण है। एचडीबी फाइनेंशि पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गा शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनोंसियल सविंसेज, 19, पंचवु जैसा कि, एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज के अधिकृत प्राधि तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 64) अं साथ पठित धारा 13(12) तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग राशि तथा भुगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागती से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँ राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा क है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति का उसले है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा जाती है और सम्पत्ति के साथ लेन-देन सम्बद्ध तिथि से हेतु एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड के प्रभार विवरण, ऋण खाता संख्या, ऋण की राशि, प्रतिभूति का वि की तिथि नीचे दी गयी है : क्र. 1) कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम ए सं. 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण की राशि; 4	र्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 रुइयाँ नगर, भारत नगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110001 प्रकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण रै प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के में नीचे वर्णित कर्जदारों को कथित सूचना में उल्लिखित में नीचे वर्णित कर्जदारों को कथित सूचना में उल्लिखित प्रभारों एवं व्ययों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि म सूचना जारी की थी। कथित कर्जदार/सह-कर्जदार के र्जदार/सह-कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती प्र पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत इसे के साथ उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी भावी ब्याज, लागत तथा प्रभारों सहित यहाँ निर्दिष्ट राशि का विषय होगा। कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतियों का वरण, माँग सूचना की तिथि, दावाकृत राशि; कब्जा करने वे पता; 4) प्रतिभूतियों का विवरण; 5) माँग सूचना की	Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhiana NEXT DATE: 19-02-2021 Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://www.incourts.gov.in CNR NO: PBLD03-074716-2018 M/s Welkin India Incorporation Vs. M/s Welkin India Incorporation Vs. M/s Aryan VIII And Resort publication issued to: 1. M/s aryan vill and resort address - through its partners manoj kumar @ manoj kumar goyal and neeru kumar alias neeru goyal carrying on its business at village dhaipai, near jodhan, pakhowal road, Idh 2. Manoj kumar @ manoj goyal s/o hans ra 3. Neeru kumari @ neeru goyal w/o manoj kumar @ manoj goyal both r/o h.no 39 block a parshant vihar, near pvr cinema, delhi partner of m/s aryan villa and resort IIp whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ /accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 85 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-02- 2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date
1. 1) कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम तथा स्याल, पवन कुमार, संजीव स्याल तथा सतीश कुमार, स साथ ही : मकान नं. 481, सेक्टर 14, फरीदाबाद-12 25458410 (रुपये दो करोड़ चौवन लाख अट्ठावन हज मकान नं. 481, सेक्टर 14, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद-12	े पता : मोहन लाल, रोशन लाल, अश्वनी कुमार, रीता भी निवासी 46–47, मार्केट नं. 1, एनआईटी फरीदाबाद, 1001, ऋण खाता सं. 702104; ऋण राशि : रु. नार चार सौ दस मात्र); 4) प्रतिभूति का विवरण :	of publication of this proclamation, take notice that in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to : https://highcourtchd.gov.in/?tre =district_notice&district=Ludhiana JMIC_Ludhiana

सूचना	Ludhiana NEXT DATE: 19-02-2021	,	तथा ईमेलः
1	Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on <u>http://ecourts.gov.in</u> CNR NO: PBLD03-074716-2018	10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा
र्निर्माण	M/s Welkin India Incorporation Vs.		रिपि प्रभुपत होने पोली पता तथा ईमेल
म 3 के	M/s Aryan Vill And Resort		२गरा
ल्लखित	publication issued to: 1. M/s aryan vill and		
जी तिथि	resort address - through its partners manoj	11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि
दार के	kumar @ manoj kumar goyal and neeru kumari alias neeru goyal carrying on its business at		I
री जाती	village dhaipai, near jodhan, pakhowal road,	एतद् द्वा	ारा सूचित किया जाता है कि राष
हत इसे	ldh 2. Manoj kumar @ manoj goyal s/o hans raj	कोर्ट-∏	I, नई दिल्ली ने 21 दिसम्बर, 202
र लिया	3. Neeru kumari @ neeru goyal w/o manoj		
वनी दी	kumar @ manoj goyal both r/o h.no 39 block a		समापन शुरू करने का आदेश दि -
ट राशि	parshant vihar, near pvr cinema, delhi partner of m/s aryan villa and resort llp	🛛 प्राप्त हुइ	ई।
यों का	whereas it has proved to the satisfaction of this	0 एतदद्व	ारा एरिनिट्स सैल्स प्राईवेट f
ा करने	court that you, the above named accused/	l `	
	/accused persons can't be served in the ordinary	I	कि आईटम नं. 10 में वर्णित प
	way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued	2020 र	को या उससे पूर्व अपने दावे का
की 📗	against you with a direction that you should	🛛 फाइनांरि	पयल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक
чл	appear personally before this court on 19-02-		कते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रम
र, रीता	2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice	I .	
र, राता दाबाद,	that in case of default on your part to appear as	इलेक्ट्रॉी	नेक माध्यमों से अपने दावे का प्र
ादाबाद, : रु.	directed above the above said case will be heard	🛛 दावे का	ंगलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा
	and determined as per law, in your absence. for	I	15.01.2021
त्ररणः । तत्ति की	details logon to : https://highcourtchd.gov.in/?trs =district_notice&district=Ludhiana		
	JMIC Ludhiana	स्थानः	दिल्ली
: स्टाल			
तक रु. \	युनियम वैक In Union Bank	عساليتي	65, सेक्टर 7ए,
तथा जाकी	and a second		
ମା କା	S ALLE C Bushing	ज्यादाबाद,	हरियाणा-121006
	प्रतिभति हित (प्रवर्त्तन) नियमा	वली. 2002	के नियम s (6) के प्रावधानों के साथ
धनियम			iन अधिनियम. 2002 के अंतर्गत अचल

à gyszur san zan fisc ñe zum	स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मिटा दिया जाना चाहिए। बताया कि चुनाव आयोग वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय लय और केंद्रीय स्वास्थ्य के नोडल अधिकारियों के र रहेंगे। रातत में 161 केंद्रों से टीकाकरण	दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में उसके पंजाकृत कार्यालय का परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 15 जनवरी, 2021 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपन्न दाखिल कर अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: ''एन-110, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017'' कृत्ते एवं के लिये एएलपीएस हॉस्पीटल लिमिटेड	 हेतु एचडीबी फाइनेंशियल सविंसेज लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतियों का विवरण, ऋण खाता संख्या, ऋण की राशि, प्रतिभूति का विवरण, माँग सूचना की तिथि, दावाकृत राशि; कब्जा करने की तिथि नीचे दी गयी है : क्र. 1) कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम एवं पता; सं. 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण की राशि; 4) प्रतिभूतियों का विवरण; 5) माँग सूचना की तिथि; 6) दावाकृत राशि रु. में; 7) कब्जा करने की तिथि 1. 1) कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम एवं पता; सं. 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण की राशि; 4) प्रतिभूतियों का विवरण; 5) माँग सूचना की तिथि; 6) दावाकृत राशि रु. में; 7) कब्जा करने की तिथि 1. 1) कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम तथा पता : मोहन लाल, रोशन लाल, अश्वनी कुमार, रीत स्याल, पवन कुमार, संजीव स्याल तथा सतीश कुमार, सभी निवासी 46-47, मार्केट नं. 1, एनआईटी फरीदाबाद, साथ ही : मकान नं. 481, सेक्टर 14, फरीदाबाद-121001, ऋण खाता सं. 702104; ऋण राशि : रु. 25458410 (रुपये दो करोड़ चौवन लाख अट्ठावन हजार चार सौ दस मात्र); 4) प्रतिभूति का विवरण : मकान नं. 481, सेक्टर 14, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद-121001 का सम्पूर्ण भाग, माप 500 वर्ग गज, सम्पत्ति की सीमाएं : पूर्व : सड़क, पश्चिम : स्टाल सं. 3, उत्तर : स्टाल सं. 47, मोहनलाल की सम्पत्ति, दक्षिण : स्टाल सं. 45; 5) मांग सूचना की तिथि : 27.10.2020; 6) दावाकृत राशि (रु. में) : 27.10.2020 तक रु. 1,35,42,822.98/- (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख बयालीस हजार आठ सौ बाईस एवं अट्ठानबे पैसे मात्र) तथा आकस्मिक व्ययों, लागत तथा प्रभारों आदि सहित वास्तविक वसूली तक भावी अनुबन्ध ब्याज। 7) कब्जा की तिथि : 13.01.2021. प्रतिभूत आसित को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम 	partner of mis aryan villa and rear pur channe, defin partner of mis aryan villa and reart lip whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused /accused persons can be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal proclamation under 82 degainst you with a direction that you should appear personally before this court on 19-02- 2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logon to https://highcourtchd.gov/in/?tra- details logon to https://highcourtchd.gov/in/?
$ f_{n} = f_{$		रीतु स्थानः नई दिल्ली कम्पनी सचिव	किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री आशीष कुमार (9999260180, अरुण यादव 9350538386)/श्री विकास आनन्द (9711010384)	जिसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित ऋणधारक(कों) एवं गारन्टर(रों) से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित तिथि को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी
$ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c}$	-		दिनांक : 15.01.2021 अधिकृत प्राधिकारी	्रत्रणधारक एवं गारन्टर का नाम अचल सम्पत्ति का विवरण बकाया राशि ऋणधारक: मै. जीएसआर इंजी. एसोसिएट्स प्रॉप. गुरदेव प्लॉट नं. 2, खसरा नं. 55/8/2/3, मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, रु. 14,66,010/-
aving specific de det aving specific de de de la specific de la	ात के मुख्यमंत्री विजय ने शुक्रवार को कहा कि वरी को देशव्यापी कोरोना	[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के 🖤 Healthcare नियम 30 के अनुपालन में] केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के समक्ष	[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अधान] केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष	कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणां भवन- आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग 450 वर्ग फीट का सभी भाग तथा लागत एवं खर्चे गारन्टर: श्रीमती रेणु रावत, मकान सं. 274, प्लॉट नं. 2, मौजा सारण, जवाहर कॉलोनी के भीतर, फरीदाबाद, हरियाणां किशन का मकान, पश्चिमः श्री भजन लाल का मकान
 An Kerdin drage data and set and set	ण की शुरुआत के तहत 161 केंद्रों से स्वास्थ्य को टीका लगाने का	(निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज	कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम 5 का विवरण (क) के मामले में एवं निप्पॉन आयल पंप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	जमा की जाने वाली धरोहर राशि: रु. 2,61,000 (रुपये दो लाख इकसठ हजार मात्र) बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया https://www.ibapi.in तथा https://www.unionbankofindia.co.in//english/Tender/View Al Auction.aspx में दी गई लिंक देखें। पंजीकरण, लागिन तथा बोली के नियमों के लिये https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp
HIV2H HHomeHomeHomeHomeHomeHomeHomeHomeHU2H HHome	ाकारियों ने कहा कि	पंचशील पार्क, नई दिल्ली- 110017'' में है, के मामले में	पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544, टावर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, सेक्टर – 49, सोहना रोड , गुरुग्राम 122018, हरियाणा , इंडिया	
एक) में मुनेछ लोगा की लिये भागा की लिये में भाग की लिये 15 जनावे, 2021 को भोगा की लोगवे, 2017 के आगे की लोग की लिये में स्वार्थ कर सकत की मंदी के स्वार्थ कर के मुने के सिंह कर कर की मानि के स्वार्थ कर सकत के मानि के स्वार्थ कर कर की मानि के स्वार्थ कर कर की मानि के स्वार्थ कर सकत के मानि के स्वार्थ कर सकत के मानि के स्वार्थ कर कर की मानि के स्वार्थ कर कर की मानि के स्वार्थ कर कर की मानि के स्वार्थ कर कर के मानि के स्वार्थ कर कर की मान के स्वार्थ कर कर कर के मान कर कर कर कर कर कर कर कर के मान कर कर के कर के मान कर	। माध्यम से अहमदाबाद ल अस्पताल (टीकाकरण	एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के	साजाइएन, 02912011R2015F1C057550 सूचना	Auer Reconstruction सिक्टर-62, नोएडा (उ.प्र.)-201309 [नियम 8(1) देखें]
गी ने जामनगर में एक ा में कहा, 'कोरोना में कहा, 'कोरोना के खिलाफ टीकाकरण हे विद्याफ टीकाकरण हे विद्याफ टीकाकरण हे विद्याफ टीककरण हे विद्याप त्यामां के प्रहे विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या के विद्या करणी के प्रजीकृत कायालय के प्रहा कि ते प्रजा कि विद्या के विद्या प्रजय के हे विद्या करकरों है विद्या करकरों है विद्या करकरों है विद्या करकरों है विद्याज करकरों है विद्या करते है विद्याज करकरों है विद्या करकरों है विद्या करते है विद्याज करकरों है विद्याज करकरों है विद्याज करता के के विवक्ष कर्णा कर राजय के विद्या कर वाकक करकरों कर साम विवक्ष करता है कर करता हु कर हतता करवा कर विवक्ष कर्णने कर साम विवक्ष करता है कर साम विवक्ष करता है विद्या कर हतता करवा करवे के तिया करकर हतता करकर हतता करकर करते हु एक हतता करवा कर सं वेक्ष करणा करकर कर साम विवक्ष कर सम्प के करता हु करा करवा करकर हतता कर करकर कर क	संवाद कर सकते हैं। वह को कोरोना वायरस के देशव्यापी टीकाकरण	आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक में निहित, के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।	('यह कंपनी') केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से 'कर्नाटक राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम जापन में संसोधन की पष्टि की मांग की गयी है।	ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) का अधिकृत प्राधिकारी है। यह कि रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड ने एसाइनमेंट डीड दिनांक 24.03.2017 के माध्य से मूल ऋणदाता मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस से वित्तीय आस्तियाँ अर्जित की हैं। यह कि रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकर एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रतिभूतिकर एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नी वर्णित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की। कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण, कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को उपयोग नीचे वर्णित तिथि पर सम्पत्ति का कथित सूचना की धारा 13(4) के तहत उपयोग नीचे वर्णित तिथि पर सम्पत्ति का कब्जा क
I 101 $dx xil xil ye filmdx xil xil xil xil xil xil xil xil xil xi$	णी ने जामनगर में एक न में कहा, 'कोरोना के खिलाफ टीकाकरण	प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक	कंपनी के प्रजीकृत कायोलय के प्रस्तावित स्थानांतरण में यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपन्न भरकर MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमे उनके	राशि तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (मैग्मा आरएआरसी 031 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) के चार्ज के अधीन होगा। विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों को और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार राधि तथा उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।
$\frac{1}{10003} = \frac{1}{10003} = $	नेवार को प्रधानमंत्री द्वारा	शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा	निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी –2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली –	कब्जा करने की तिथि
a fileRight Right Righ	' राज्य टीकाकरण री डॉ. नयन जानी ने कहा	जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: ''एन-110, पंचशील पार्क, नई दिल्ली- 110017'' कृत्ते एवं के लिये	प्रति आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पत्ते पर भी प्रेषित करें। पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 544, टावर बी–2, स्पेज ऑय टेक पार्क, सेक्टर –49, सोहना रोड, गुरुग्राम–122018, हरियाणा, इंडिया	उत्तराधिकारियों के माध्यम से), 2. श्रीमती बालादेवी रविन्दर मंजिल, सनी वैली सोजीएचएस 30,16,347.43 (रुपये तीस लाख कुमार पत्नी स्व. श्री रविन्दर कुमार, 3. श्री अंकित कुमार लिमिटेड, प्लॉट सं. 27, सेक्टर-12 12.01.2021 सोलह हजार तीन सौ सैंतालीस एवं शर्मा, 4. श्री अनुज कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री रविन्दर कुमार 5. द्वारका, नई दिल्ली- तैंतालीस पैसे मात्र)
$\frac{1}{100}$	विभाग ने 4.31 लाख कर्मचारियों की पहचान	हस्ता./- स्थानः नई दिल्ली पूनम मक्कर	हस्ता∕- कपिल शर्मा	कक्कड़ नई दिल्ली-110034 का सम्पूर्ण 42,33,745.94 (रुपये बयालीस भाग 12.01.2021 लाख तैंतीस हजार सात सौ
	ाजनन डाक्टर आर नस हैं।			तिथिः 15.01.2021, स्थानः नोएडा अधिकृत प्राधिकारी, रिलायंस एसेट रीकंस्ट्रवशन कम्पनी लिमिटेड

FINANCIAL EXPRESS

14 NATION

MERCOM CAPITAL 2020 REPORT **Corp funding to solar** sector up 24% globally

FE BUREAU Kolkata, January 15

CORPORATE FUNDING TO the solar sector globally, including venture capital (VC) private equity (PE) debt financing, and public market financing, totalled \$14.5 billion in 2020 – a 24% increase compared to \$11.7 billion in 2019, a Mercom Capital

Group report said. The clean energy communication and consulting firm said in its annual report that during the first half of the fiscal, corporate funding was down 25% year on year, but recovery has been swift and broad, with corporate funding up 24% for the year. Publicly traded solar companies had an unprecedented yearwith solar ETF up 225% and 15 solar stocks up over 100% in the calendar year. Public market funding was also up with the help of several IPOs, and debt financing was up on the back of securitisation deals. Solar asset acquisitions were at an all-time high becoming even more sought-after in the pandemic year, Raj Prabhu, CEO of Mercom Capital Group, said.

Global venture capital and

इण्डियन ओवरसीज बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)



billion in its initial public offerprivate equity funding in the ing in the fourth quarter of 2020.

solarsectorin 2020 came to \$1.2 billion through 41 deals, comfinancing came to \$8.3 billion, a pared to \$1.4 billion through 53 6.4% increase year on year. Eight deals in 2019. Of the \$1.2 billion securitisation deals totalling inVC/PE funding raised, \$1.1 bil-\$2.2 billion were recorded in lion went to 27 solar down-2020, the largest amount of stream companies, which financing through securitisation accounted for 90% of total VC in a year. Top investors in largefunding in 2020. Solar service scale projects during the fourth providers raised \$61 million; PV quarter of the calendary earwere companies raised \$17 million; Societe Generale, which invested Balance of System (BOS) compain five projects, Sumitomo Mitnies brought in \$15 million; sui Banking Corporation, which thin-film technology companies invested in four projects, Credit raised \$15 million, and concen-Agricole, European Bank for Reconstruction and Developtrator photovoltaics (CPV) companies raised \$5.5 million. ment (EBRD), and Inter-American Investment Corporation

The top VC-funded companies in 2020 were Ayana Renewable Power raising \$390 million, Silicon Ranch Corporation bringing in \$225 million, Brighteraising \$76 million, Sunseap Group raising \$72 million



Govt exhorts domestic steel makers to be more competitive

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, January 15

THE GOVERNMENT HAS exhorted domestic steel makers to become more competitive locally as also in export markets besides developing newer products for use in industrial and construction sectors.

In the upcoming Budget, the steel makers are expecting relaxation in basic custom duty (BCD) levied on raw materials like coking coal, anthracite coal, graphite, electrode, limestone and dolomite etc. At a conference organised by Indian Steel Association (ISA) on Friday, Union steel minister Dharmen-

dra Pradhan said domestic steel manufacturers should focus on increasing production of finished steel while reducing imports and increasing imports. "I expect this from the ISA

that when we hope for a tax restructuring from someone, we must increase production, become more competitive, increase exports and minimise import. The Finance Department gets some amount as revenue (on import of steel making raw materials). It must be filled with confidence that when the manufacturing line will be in our country the government can earn more (revenue by means of tax)," he said.



"We need to increase our consumption. When volume increases, we (industry) will be able to contribute more to the country. Then the Finance Department will take interest in the reforms we are expecting," the minister said.

Citing the example of Japan,

Pradhan said the island country is an exporter of finished steel. It is a global supplier of steel for segments like automobile, electronics, big infrastructure etc.

DELHI

When Japan was able to make a global market for itself "why can't we (Indian steel players)", the minister stressed.

Minister of state for steel Faggan Singh Kulaste said the domestic per capita steel consumption at 74 kg is lower compared to the global average consumption. It is one-third of the global average per capita steel consumption, he said. Kulaste asked the ISA, which is the apex body for steel makers in India, to draw a roadmap to increase ways of increasing steel consumption both in urban and rural areas of the country, and submit it with the ministry.

At the conference attended by domestic and international participants, additional steel secretary Rasika Chaube said with government's enhanced thrust on 'Make in India' and focus on 'Aatmanirbhar Bharat mission, a host of opportunities are in the offing for Indian steel sector as well as for the downstream industries.

The government has earmarked ₹102 lakh crore for the infrastructure projects in the country over the next 5 years, she said.

Police release Arnab-BARC CEO WhatsApp chats showing 'nexus'

EXPRESS NEWS SERVICE Mumbai, January 15

ASUPPLEMENTARY CHARGE-SHEET filed by the Mumbai Police in the alleged TRP scam case containing over 200 pages of WhatsApp conversations appears to show Republic channel editor Arnab Goswami offering to use political connections at the highest levels to fob off complaints by the National Broadcasters'Association (NBA) against the Broadcast Audience Research Council (BARC), and telling the BARC Chief Executive Officer that he has "personally conveyed" the latter's concerns to the PMO.

The supplementary chargesheet was filed on January 11 against three persons,

paid money for allegedly boosting their TRPs.

has alleged that Dasgupta,

The police have included the WhatsApp chats between Dasgupta and Goswami in the supplementary chargesheet to show the alleged nexus between the head of BARC, which has a mandate to calculate TRPs on the basis of which advertisement rates for TV channels are decided, and the Republic TV editor.

The supplementary

chargesheet was filed on January 11 against three persons, including former

BARC CEO Partho Dasgupta, for allegedly helping show higher TRPs for Republic Media and other channels



complaints against it by talking of"favours" done to the BIP, and Goswami apparently offers to help with the highest office in the country, as well ministers and other powerful personalities, including one 'AS'.

In a conversation dated April 4, 2019, the man identified as Dasgupta speaks about facing trouble from the Telecom RegularityAuthority of India (TRAI) after complaints by some news channel owners. He tells Arnab, "Can you help by telling AS to tell TRAI to pipe down on barc?

Arnab: I can send a message...

Dasgupta: Can you text AS and get TRAI rapped?

Arnab: Can you give me three points why TRAI action is working against AS interest? Politically. Dasgupta: With channels getting blacked out, impact of messaging on TV will reach lesser people and hence diluted impact... If their (cable operators) interest is hurt they can

take a touch stand against government, monthly cost of TV subscription going up can have backlash on government, public anger... This helps?

On April 6, the person identified as Goswami messages Dasgupta: Strong message conveyed to Trai.

Later, at 6.35 pm, Goswami sends Dasgupta messages: PMO has been told by me personally about BARC.

Dasgupta: But he has to back us up – and not let others effect (sic) us.

A chat on March 25, 2019, has 'Dasgupta' appealing to 'Goswami' once again, with Goswami telling him he is meeting the Prime Minister.

Dasgupta: In strict confidence. Have jammed NBA. Rajat (an apparent reference to Rajat Sharma, who was heading the NBA then) is going after me. You need to help me thru PMO... Goswami: Noted. And will happen... Rajat has no entry.

The Crime Investigation Unit (CIU) of the Mumbai Police

whose association with Goswami goes back to the time when both worked at Times Now, ensured that the two Republic News channels had the highest TRPs in the news segment.

Bank proposes to sell its 02 (Two) vehicles Model Maruti Alto in "As is Where is" condition to public, interested Public are requested to send the applications in the bank's format addressed to Chief Manager, Indian Overseas Bank, Regional Office, 595, Indira Nagar, Malik Chowk, Dehradun. Last date for submission of tender is 27.01.2021 till 04.00 pm. Prescribed format and more information is available on our website www.iob.in/tenderlist.aspx

60

PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LIMITED CIN: L21098PN2015PLC153717 Registered Office : Thergaon, Pune - 411033. Tel.: 020-40773423 Fax: 020-40773388 Website: www.pudumjee.com E-mail: investors.relations@pudumjee.com PUDDIMJEE

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of Pudumjee Paper Products Limited is scheduled to be held on Saturday, 23rd January, 2021, to consider and approve, inter alia, the Unaudited Financial Results of the Company along with the Limited Review Report for the Quarter and Nine Months ended on 31st December, 2020.

This Notice is also available on the Company's website i.e. www.pudumjee.com and also on the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed i.e. BSE Limited & National Stock Exchange of India Limited (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

In compliance with provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and in terms of Insider Trading Policy of the Company, the Trading Window for dealing in the securities has been closed from 01st January, 2021 upto 48 hours after the declaration of financial results of the Company i.e., 25th January, 2021 (both days inclusive) for the Quarter and Nine Months ended on 31st December, 2020.

> For Pudumjee Paper Products Limited Sd/

Place: Pune Date: 16th January, 2021



Vinay Jadhav

Company Secretary

Form No. INC-26

[Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT

(REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI)

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule(5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

And

In the matter of ALPS Hospital Limited having its registered office at N-110. Panchsheel Park, New Delhi -110017

.....Applicant Company

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government, power delegated to Regional Director under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-ordinary General Meeting of the Company held on January 15, 2021 to enable the Company to change its registered office from "National Capital Territory (NCT) of Delhi" to "State of Uttar Pradesh"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its registered office at the address mentioned below:

"N-110, Panchsheel Park New Delhi - 110017"

testing Army's patience, says Army chief

and Aurora Solar and Zero Mass

Water, each raising \$50 million.

There were 102 VC and PE

investors that participated in

funding deals in 2020, with five

involved in multiple rounds.

Public market financing was up

101%, with \$5.1 billion in 2020.

Array Technologies raised \$1.2

In 2020, announced debt

(IDB Invest), each investing in

sition deals were transacted in

the solar sector in 2020 com-

Sixty-two merger and acqui-

three projects.

pared to 65 in 2019.

IN A CLEAR message to China, Chief of Army Staff Gen MM Naravane on Friday said no one should make any mistake of testing India's patience though it is committed to resolve the border standoff along the northern frontier through talks and political efforts.

In an address at the Army Day parade here, Gen Naravane said a "befitting response" was given to the "conspiracy" to make unilateral changes on the border and that the sacrifice of the Galwan heroes in eastern Ladakh will not go waste.

"We are committed to resolve disputes through talks and political efforts but no one should make any mistake of testing our patience," he said. -PTI

including former BARC CEO Partho Dasgupta, for allegedly helping show higher TRPs for Republic Media and other channels. An earlier chargesheet had named 12 persons and six channels as having

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, January 15

THE ED ON Friday conducted

raids in and around Maharash-

tra's Pune district in connection

with its money laundering

probe against a local cooperative

bank, promoted by a former

NCP MLC, linked to an alleged

said in a statement issued here

that the action was carried out

against Shivajirao Bhosale

The central probe agency

fraud of ₹71 crore.

The police have said that the investigation is going on and a supplementary second chargesheet will soon be filed in the case.

A scrutiny of the chats, which go back to July 2017,

Graft case: ED raids Pune-based co-op

Cooperative Bank. It is pro-

moted by former NCP MLC Anil

than 90% of the loans from the

bank are non-performing assets

(NPA)"."During the search oper-

ation, incriminating documents

have been recovered and seized,

including digital evidences,

under the Prevention of Money

Laundering Act (PMLA)," it said.

registered a case against Bhos-

ale, the prime accused in the

case, his wife and some others

for alleged forgery, misappro-

Last year, the Pune police had

The ED claimed that "more

bank promoted by former NCP MLC

Shivajirao Bhosale.

the highest TRPs. The police say they have evidence to prove this, though it is not part of the chats attached to the supplementary chargesheet.

In the chats, the BARC CEO appears to be trying to fend off

priation and cheating. The ED

took cognisance of this FIR to

file a criminal case under the

PMLA. The police had booked

Bhosale (56), the director of the

bank, another director Suryaji,

Pandurang Jadhav, CEO Tanaji

Dattu Padwal and others. It had

arrested Bhosale and he is in jail

Anil Shivajirao Bhosale have

been charged with committing

offence of siphoning off money

from the bank. It is found that

there was cash discrepancy of

nearly ₹71 crore," the ED said.

"Accused persons including

'Confident that 13th edition of Aero India will be grand success'

DEFENCE MINISTER RAJ-**NATH** Singh on Friday expressed confidence that the 13th edition of Aero India, considered Asia's largest aerospace exhibition, to be held here from February 3 to 5 will be a "grand success", with all the necessary Covid precautions in

place. Karnataka chief minister B S Yediyurappa, who attended the apex committee meeting for Aero India 21, chaired by Singh, said the government was spending ₹30 crore in developing road infrastructure for the show this year in addi-

Sd/-

कार्यपालन यंत्री

वास्ते-आयक्त

नगरपालिक निगम, कटनी

tion to meeting other direct and indirect expenses.

"There was a meeting here between the Karnataka government and the defence ministry, during which it was decided to make Aero India a grand success," Singh said.

Speaking to reporters after attending the Apex Committee meeting, the defence minister said he has concluded after a review that all the preparations needed to make the air show successful are being done by the Karnataka government, defence ministry, especially the Air Force. -PT

कार्यालय नगरपालिक निगम, कटनी (म.प्र.) कटनी, दिनांक :- 12/01/2021 क./4353/लो.नि.वि./निर्माण/2020-21 निविदा आमंत्रण सूचना

at present.

नगरपालिक निगम, कटनी द्वारा निम्नॉकित कार्य हेतु ई-टेण्डरिंग व्यवस्था, के अंतर्गत ऑनलाईन निथिदायें <u>https://www.mptenders.gov.in/</u> पर Key Date & Time अनुसार पंजीकत फर्मों से आमंत्रित को जाती हैं। समस्त शर्ते व जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन कार्य दिवस में नगरपालिक निगम, कटनी में एवं portal में देखी जा सकती है।

с ь.	कार्थ का नाम	अमानत राशि (रूपये में)	समय अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रूपचे में)	निविदा आमंत्रण का क्रम
1,	बस स्टैंड स्थित ऑडिटोरियम का संचालन एवं संधारण कार्य	2,00,000	05 वर्ष	15,000	द्वितीय

(1) निविदा प्रपत्र क्रय एवं विड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 15.01.2021 सायंकाल 5:30 से। (2) निविदा प्री-बिड मीटिंग की तिथि 22.01.2021 सार्यकाल 3:00 बजे तक।

(3) निविदा प्रपत्र क्रय एवं विड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.01.2021 को सायंकाल 5:30 तक।

(4) विड खोलने की तिथि 01.02.2021 सायंकाल 3:00बजे से।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

BRANCH : SHYAM LAL COLLEGE, NEW DELHI

The undersigned, being the Authorized Officer of Central Bank of India for Branch situated at SHYAM LAL COLLEGE NEW DELHI, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of power conferred under section 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 09.12.2019 borrower MR.PRAMOD KUMAR VERMA AND MRS.MEENA VERMA to repay the amount mentioned in the notice being Rs.6,77,217/- (SIX LACS SEVENTY SEVEN THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTEEN ONLY.) within 60 days from the date of receipt of the said notice

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has take possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 9 of the said rules on this 14th Date January Days 2021 Year.

The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property will be subject to the charge of the Central Bank of India for Branch situated at SHYAM LAL COLLEGE NEW DELHI for an amount of Rs.677,217/- (SIX LACS SEVENTY SEVEN THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTEEN ONLY.) and interest & cost thereon w.e. f14.01.2021

PUBLIC NOTICE Nos. 192894, 278819, 8200696 for Equity shares No's 48 of PHILIPS INDIA LIMITED standing in the name(s) of NIRMALA AGRAWAL has/have been lost or mislaid and undersigned has/have applied to the Company to issue duplicate Certificate(s) for the said shares. Any person who has a claim in espect of the said shares should lodge such claim with the Company at its registered address 3RI FLOOR, TOWER A, DLF IT PARK, 08 BLOCK AF MAJOR ATERIAL ROAD, NEW TOWN (RAJAR HAT), KOLKATA, WEST BENGAL-700156, within 15 days from this date else the Company will

proceed to issue duplicate Certificate(s). Name(s) & Address of Applicant(s NIRMALA AGRAWAI MIG Flat No-72, Pocket A-1 Date: 16/01/2021 Place: New Delhi Sector-3, Rohini New Delhi-11008

MARUTI 🖌 💲 SUZUKI MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

CIN: L34103DL1981PLC011375 Regd. Off.: Plot no. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Tel: 011-46781000, Fax: 011-46150275/76

www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure equirements) Regulations, 2015 that the board of directors of the Company shall meet on Thursday, the 28th January, 2021, to consider and approve, inter-alia, the inaudited financial results of the Company for the guarter ended 31^{er} December, 2020 Further details are available a www.marutisuzuki.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Maruti Suzuki India Limited

[Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT (REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI) In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013

and clause (a) of sub-rule(5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 And In the matter of Saket City Hospitals Limited having its registered office at

N-110, Panchsheel Park, New Delhi -110017

Applicant Company

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government, power delegated to Regional Director under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-ordinary General Meeting of the Company held on January 13, 2021 to enable the Company to change its registered office from "National Capital Territory (NCT) of Delhi " to "State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendaval Antvodava Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its registered office at the address mentioned below:

"N. 110 Pancheheel Park New Delhi - 110017"

HAX B Form No. INC-26

For and on behalf of ALPS Hospital Limited Sd/- Ritu Date: 16-01-2021 Membership No.:A52003 Place: New Delhi Date: 16-01-2021	For and on behalf of Saket City Hospitals Limited Sd/- Poonam Makkar Company Secretary Membership No.: F7919	secured assets. EQUITABLE MORTGAG OF KHASRANO 34/3 MI	on is invited to provision of sub-section (8) of sec DETAILS OF SECUREI GE OF ALL THAT PARTAND PARCEL OF LAND IN THE N SAI PURAM HADBAST GOVENDPURAM GHAZIAB AST BY:- PLOT NO 46, ON THE NORTH BY:- 12 FEET PLACE : DELHI	D ASSETS NAME OF MEENA VE AD SITUATED AREA ROAD, ON THE WE	ERMA COVERD L OF PROPERTY 8 ST BY:- PLOT NO	JNDER PLOT NO.47 PA 33.61 SQ MTR	ART New Delhi 15 th January, 2021 SY:- Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of Registered Office
Stressed Asset Man Bank of Baroda Determined Determined Determined SALE NOTICE Bank of Baroda Determined Determined Sale Notice for Sale of Movable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and B Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described Creditor, on 30.01.2019, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" for recovery of below mention	FOR SALE OF MOVABLE PF [See Rule 6(2)] Enforcement of Security Interest Act, 2002 I movable properties hypothecated/charged	ankofbard ROPERTIES read with Rule 6(2) of the to the Secured Creditor, p	bda.com 011-4302	6349, 4	11709:	Baroda, Secured	of the Company for one state to another Before the Central Government Northern Region, New Delhi Region In the matter of Sub-Section (4) of the section 13 of the companies Act, 2013 And Clause (A) of Sub-rule(5) of rule 30 of the companies Incorporation Rules, 2014 And In The Matter of : C M AUTOSALES PRIVATE LIMITED having its Registered Office at Plot No C-155, Phase 7, Industrial Area, Mohali, Punjab, 160054 Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the
S. No. Name & address of Borrower/s / Guarantor/ s	Description of theimmovable & Movable property with known encumbrances, if any	Total Dues	Reserve Price (Rs.) EMD Bid Increase Amount	Date and time of E-auction	Status of Possession (Constructive /Physical)	Property Inspection date & Time.	Central Governmentunder section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting/ Extra ordinary general meeting held on 20th November, 2020 to
 New Delhi 110020 Shri. Anand Kashyap (Guarantor) 60 B C 5, Lane Sainik farms Dr. Ambedkar Nagar Hauz Khas South Delhi 110062 Shri. Anand Kashyap Kashyap Motor India Pvt. Ltd Under Liquidation 20, Okhla Industrial Estate, Phase 3 New Delhi 110020 Shri Rajendra Kashyap H no-101, crescent court t-1a, golf course, jaypee greens, Greater Noida, kasana Gautam buddha nagar - 201310 Uttar Pradesh Ms. Anita Monnee Kashyap Kashyap Motor India Pvt. Ltd Under Liquidation 20, Okhla Industrial Estate, Phase 3 New Delhi 110020 Ms. Anita Monnee Kashyap Sol Sainik Farms Dr Ambedkar Nagar New Nelhi – 110062 Ms. Anita Monnee Kashyap 201 Tower III Sea Court Jaypee Green Greater Noida Gautam Budh Nagar 201308 	Delight Garden Village Jalpura Near Pani ki Tanki Kulesra Bisrakh Road sec 1 Greater Noida Gautam Budh Nagar UP As per Annexure 1 Stocks and Furniture Items kept in plot no 18 Block C Phase II Industrial	Rs 1883.85 lakhs (Rs Eighteen Crore eighty Three Lakhs eighty five thousand only) as on 19.04.2018 plus further unapplied interest wef 20.04.2018 plus other expenses and charges till date to be realized by the sale of the said movable assets	Reserve Price: ₹ 36.08 Lacs + GST as applicable,		Physical Authorised O Mr. D. K. M 1-43026349, (ittal,	enable the company to change its Registered Office from "State of Punjab" to "Union Territory of Chandigarh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address Northern Region New Delhi within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below: For and on behalf of the applicant Date : 16.01.2021 MAHESH MAHAJAN
Note: Detailed annexures of movable assets will be uploa For detailed terms & conditions of sale, please refer to the link				bapi.in.			Place: Punjab Director
Date : 15-01-2021, Place : New Delhi financialexp.epape.in				Authorized New De		Ink of Baroda	

FINANCIAL EXPRESS

Trump's China tech war backfires on carmakers as chips run short

REUTERS January 15

14

AUTOMAKERS AROUND THE world are shutting assembly lines because of a global shortage of semiconductors that in some cases has been exacerbated by the Trump administration's actions against key Chinese chip factories, industry officials said.

The shortage, which caught much of the industry off-guard and could continue for many months, is now causing Ford Motor Co, Subaru Corp and Toyota Motor Corp to curtail production in the US. Automakers affected in other markets include Volkswagen, Nissan Motor and Fiat Chrysler Automobiles.

The problems stem from a confluence of factors as auto manufacturers compete against the sprawling consumer electronics industry for chip supplies. Consumers have stocked up on laptops, gaming consoles and other electronic products during the pandemic, creating tight chip supplies

throughout 2020. They have also bought more cars than in-

Ø

PHOLIMULES

www.nseindia.com)

Place: Pune

Date: 16th January, 2021

BACK PAGE

dustry officials expected last spring, further straining supplies. In at least one case, the shortage ties back to President Donald Trump's policies aimed at curtailing technology transfers to China.

One automaker moved chip production from China's Semi-

and Nine Months ended on 31st December, 2020.

Quarter and Nine Months ended on 31st December, 2020.

conductor Manufacturing International, or SMIC, which was hit with US government restrictions in December, to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co in Taiwan, which in turn was overbooked, a person familiar with the matter told *Reuters*. An auto supplier confirmed

TSMC has been unable to keep up with demand.

PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LIMITED

CIN: L21098PN2015PLC153717

Registered Office : Thergaon, Pune – 411033. Tel.: 020-40773423

Fax: 020-40773388 Website: www.pudumjee.com

E-mail: investors.relations@pudumjee.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a

meeting of the Board of Directors of Pudumjee Paper Products Limited is scheduled to be

held on **Saturday**, 23rd January, 2021, to consider and approve, inter alia, the Unaudited

Financial Results of the Company along with the Limited Review Report for the Quarter

This Notice is also available on the Company's website i.e. www.pudumjee.com and also

on the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed i.e. BSE

Limited & National Stock Exchange of India Limited (www.bseindia.com and

In compliance with provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

and in terms of Insider Trading Policy of the Company, the Trading Window for dealing in

the securities has been closed from 01st January, 2021 upto 48 hours after the declaration

of financial results of the Company i.e., 25th January, 2021 (both days inclusive) for the

Notice is hereby given Tata Steel Ltd. Registered Office Bombay House 24, Homi Mody Street, Fort Mumbai- 400001 47 of SEBI (Listing Ob Notice is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of the Company has/have bee Requirements) Regul lost/mislaid and the holder[s] of the said securities/applicant[s] has/have applied to the Company t board of directors of th ssue duplicate certificate[s] on Thursday, the 28 Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at it consider and appr Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate[unaudited financial re without further intimation for the guarter ended Name[s] of holder[s] [and Kind of Securities and face valu No. of Further details jt. holder[s], if any] Securities www.marutisuzuki.co Mrs. Yogmaya Mathur 388860332-388860360 Equity share face value Rs. 10/-35 Mr. Shiv Bihari Mathur and www.nseindia.co Mr. Shiv Bihari Mathur 384015009-384015043 Equity share face value Rs. 10 Mrs. Yogmaya Mathur Place: Jaipur [Name[s] of holder[s]/Applicant[s] New Delhi Mrs. Yogmaya Mathur, Mr. Shiv Bihari Mathu Date: 16.01.2021 15th January, 2021

Public at large is hereby informed that my client, M/s. Landmark Real Estate Developers Ltd., the Developers of an ongoing residential project known as Casa Unico situated at Survey No. 61 of Village Ashane, Taluka Karjat, has terminated/ cancelled the Agreement for Sale dated 15-02-2020 executed by my client in favour of Mrs. Nirmaladevi Prabhunath Mishra which is registered with the Sub Registrar of Assurance at Karjat under serial no. 465/2020 on 15-02-2020, for Non payment of any amount of money consideration as per the terms of the agreement. The said Agreement was in respect of Flat no. 104 of A wing in A1 Building to be known as Adonia-1 which is under construction in the project being developed by it. Two cheques namely Cheque No. 100031 of Rs. 8,25,000/- & Cheque No. 100032 of Rs. 8,25,000/- both drawn on Abhyudaya Co-op Bank Ltd., Thane (West) Branch issue by Mrs. Nirmaladevi Prabhunath Mishra have been returned unpaid by the Bank for insufficient funds in her account making the Agreement for Sale dated 15-02-2020 as invalid & void. Inspite of several reminders Mrs. Nirmaladevi Prabhunath Mishra did not make the payment of both dishonored cheques. Finally by letter dated 8th September 2020 my client has terminated/cancelled the aforesaid agreement. Now through this Public Notice the public at large is informed that Mrs. Nirmaladevi Prabhunath Mishra has no right, title, claim and or interest of any nature what so ever in the said flat on the basis of the terminated/cancelled agreement for sale dated 15-02-2020. My client is absolutely free to deal with the said flat at its sole discretion. Any person dealing with her in respect of the said flat in any manner whatsoever shall not be binding on my client.

Date - 15/01/2021

Adv. Kailas Ganpat More B.L.S.L.L.B Prabhat Apartment, Room No.4, 2nd Floor, Near Sunil Chikki

Tal. Karjat, Dist. Raigad Place: Mumbai Mobile No. 9960838164/9028508496 Date: 14.01.2021

CREDIT RECOVERY AND

LEGAL SERVICE DEPARTMENT

REGIONAL OFFICE :

6/7, ' Jeevan Prakash', LIC Building, Shivaji Nagar, Pune 411005 Maharashtra. Phone 020-25552013

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED CIN: L34103DL1981PLC011375 Regd. Off.: Plot no. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Tel: 011-46781000, Fax: 011-46150275/76	GCD ,	Regd. Office : De Tel + 91(0) Fax: +0 Email: goacar	CARBON L mpo House, Campal, Panaji, G 832) 2441300, 2441457, 22244 91 (0832) 242 7192, 2228588 8 bon@gmail.com Website: ww ate Identity No.L23109GA1967	00 - 403 001, INDIA. 53 & 2223684 222 5098 w.goacarbon.com
www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in Notice is hereby given pursuant to Regulation			NOTICE	
47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the board of directors of the Company shall meet on Thursday, the 28" January, 2021, to consider and approve, inter-alia, the unaudited financial results of the Company for the quarter ended 31" December, 2020. Further details are available at www.marutisuzuki.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com	hereby give Limited is s to inter-alia Results of	en that the m cheduled to a, consider	neeting of the Board of be held on Thursday , and take on record t ny for the period endeo s.	Regulations, NOTICE is Directors of Goa Carbon the 28th January, 2021 he Unaudited Financial I on December 31, 2020 r GOA CARBON LIMITED
For Maruti Suzuki India Limited			665	Sd/-
Sanjeev Grover New Delhi Vice President and 15 th January, 2021 Company Secretary	Place : Par Date : Jan	naji, Goa. uary 15, 2021		PRAVIN SATARDEKAR Company Secretary M. No. A24380
FINEOTEX CHEMICAL LIMITED (CIN: L24100MH2004PLC144295) 42-43, Manorama Chambers, S.V. Road, Bandra (West), Mumbai-400050, India			PUBLIC NOTICE at the below mentioned Sub I kers / Authorised Person of K	Brokers / Authorised Person are lotak Securities Limited.
Tel: 91-22-26559174/75/76/77 Fax: 91-22-26559178 Email: info@fineotex.com	Sub Broker/ Authorised Person Name	Trade Name	Exchange Registration Numbers of Sub Broker/ Authorised Person	Address of Sub Broker/ Authorised Person
URL: www.fineotex.com NOTICE NOTICE is hereby given that pursuant to	AJAY GUPTA	AJAY GUPTA	BSE - AP01067301101709 NSE - AP0291103171	Opp Old Pragati Mitra Mandal, Block No 10 Shri Krishna Niwas, G G Cross Road Mulund West, Mumbai-400080
Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a	AMIT VASANT NAIK	AMIT VASANT NAIK	BSE - AP01067301110983 NSE - AP029118461	362 Shri Siddharudh Prasad, 1st Floor Room No 2 J S S Road, Opp Vanguard Studio Thakurdwar, Mumbai-400002
meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 22nd January, 2021 at Mumbai, inter-alia, to consider and	BLOSSOM FINANCIAL SERVICES	BLOSSOM FINANCIAL SERVICES	NSE F&O - APF029122571	A/101 Jay Shiv Samarpan CHS Ltd, R N P Park, Bhayandar East, Thane-401105
approve the un-audited financial results for the quarter ended 31st December, 2020. This information is also available on	DAKSHA GIRISH DOSHI	DAKSHA GIRISH DOSHI	BSE - AP01067301109023 NSE - AP0291106881	303 Satyam 2 Raheja Complex, Behind Times Of India Press, Malad East, Mumbai-400097
Company's Website at www.fineotex.com and may also be available on the website of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com	DEEP BHAVESH SHAH	DEEP BHAVESH SHAH	NSE - AP0291105671	C-602 Shivdham Shivkripa, Satya Nagar Borivali West, Satya Nagar Behind Saibaba Garden, Mumbai-400092
For Fineotex Chemical Limited on behalf of the Board Sd/- Sanjay Tibrewala	GYANPRA- KASH KAMALAKAR CHAUBEY	GYANPRA- KASH KAMALAKAR CHAUBEY	BSE - AP0106730173387 NSE - AP0291094811	Flat No B 106 Jash Apt, 100feet Vasant Nagari Link Road Achole, Nallasopara E, Thane-401209
Whole Time Director& CFO	HATIM ABDULRAHIM	HATIM ABDULRAHIM	NSE - AP0291079291	Johar Mansion No 8, Ground Flr, Arthur Bunder Road

MUMBAI

HATIM ABDULRAHIM JALIWALA	HATIM ABDULRAHM JALIWALA	NSE - AP0291079291	Johar Mansion No 8, Ground Fir, Arthur Bunder Road Colaba, Mumbai-400005
KHUSHBOO SALUJA	KHUSHBOO SALUJA	NSE - AP0291103411	101 LA Roche Near, Womens Hospital, 19h Road Kha West, Mumbai-400052
Kirtikumar Futarmal Jain	Kirtikumar Futarmal Jain	BSE - AP01067301101295 NSE - AP0291102861	802 Satra Park, Societ Shimpoli Road, Kastur Parl Near Relaince Mall Borival West, Mumbai-400092
MANISH VIRCHAND LAKHANI	MANISH VIRCHAND LAKHANI	NSE - AP0291104631	Near Muncipal Hospital, 4 Karachi Cottage L B S, Road Bhandup West, Mumbai-400078
MEHBOOB BHATTI	MEHBOOB BHATTI	NSE - AP0291104311	Behind Rna Park Sanska Building, B22/602 New Rna Colony Vashi Naka Chembur Mumbai-400074
PARAG PANCHAMIA	PARAG PANCHAMIA	NSE F&O - APF029114311 NSE - APX029100091	Shop No.9, Silver Croft, Adarsl Dugdhalaya, Marve Road Malad (W), MUMBAI-400064
POOJA GUPTA	POOJA GUPTA	BSE - AP01067301107494 NSE - AP0291105531	B 1202 Vivarea Sane, Guru Marg, Mahalaxmi Jacol Circle, Mumbai - 400011
	PRATHAMESH JAYPRAKASH TAWDE	NSE - AP0291105791	F 14 Satguru Apartment, Ol Agra Road Near, United 2 Gokul Nagar, Thane-400601
PRATISHEK RATHOD	PRATISHEK RATHOD	BSE, F&O - AP01067301105244 NSE - AP0291104661 MCX - 132152 NCDEX - 121128	Room No1 Vasant Niwas Chawl Mamletdarwadi, Roa No 3 Opp Kadiya Wadi Mumbai-400064
RAJIV V DHAMI	RAJIV V DHAMI	BSE - AP0106730177971 NSE - AP0291096931	604 Laburnum Mahindra Gardens SV Road, Near Patka College Goregaon West Mumbai-400104
RANJINI PILLAI	RANJINI PILLAI	BSE - AP0106730179946 NSE - AP0291098241	B/710 Bhoomi Hills Chs, Thaku Village Near, N G Suncit Kandivali East, Mumbai-400101
REEMA AGARWAL	REEMA AGARWAL	BSE - AP0106730164640 NSE - AP0291090101	B-501 Vikas Park Mithchowk Jn of Link Road Marve R Malad, Malad West, Mumba 400064
RISHI RAGHUVA- NSHI	RISHI RAGHUVA- NSHI	BSE - AP01067301106675 NSE - AP0291105111 MCX - 129277 NCDEX - 120526	Gala No 37, 1st Floor, Sahyo Industrial Estate, Near S I Stone Mira Road East Thane-401107
ROHIT RAMANAND HARLALKA	ROHIT RAMANAND HARLALKA	BSE - AP01067301102569 NSE - AP0291103361	A-3/201, Ostwal Park, Jesa Park Opp, Jain Mandir Bhayande East, Thane-401105
SANJAY TANTIA	SANJAY TANTIA	BSE - AP0106730182062 NSE - AP0291099341	605 Tower-2 Casa Grande, 6th Fir SB Marg Next To Peninsul: Corp Park, Lower Parel Delision Road, Mumbai-400013
SANTOSH SURESHK- UMAR SHAH	SANTOSH SURESHK- UMAR SHAH	BSE - AP01067301108002 NSE - AP0291105861	B 1 101 Shiv Shakti Complex B P Cross Talav Road Near, P Ground Bhayander Eas Thane-401105
SHIVAJI GANGARAM SHINGOTE	SHIVAJI GANGARAM SHINGOTE	NSE - AP0291106501	Anjali Mendosa Chawl No Room, No 1 Near Paranjpe Ha Datar, Colony Ashok Naga Bhandup E, Mumbai-400042
SHRIKANT SHRIPATI KUMBHAR	SHRIKANT SHRIPATI KUMBHAR	NSE - AP0291104171	A-401 Prajapati Cascade, Plo 7 Road No. 18 Near Shiv Complex, Sector New Panve Panvel-410206
SIDDHANT HIREN DAND	SIDDHANT HIREN DAND	BSE - AP0106730180286 NSE - AP0291098181	2203 Springs Island City, Cente Dr Ambedkar Road Near Wadala Telephone Exchang Dadar E, Mumbai-400014
SMRUTIRE- KHA DAS	SMRUTIRE- KHA DAS	NSE - AP0291107851	Building No 37 Flat No 803 Seawood Estate Ltd Navi Mumbai Nerul Node 3 Thane-400706
SNEHA RAMESHBHAI GANGAR	SNEHA RAMESHBHAI GANGAR	BSE - AP0106730194519 NSE - AP0291100611	901 Varun Tower, Opp Shivaj Technical School Pantnaga Ghatkopar E, Mumbai-400075
SONAL VARSHNEY	SONAL VARSHNEY	BSE - AP0106730158357 NSE - AP0291087911	Flat No 605 Bldg No.7, Virar Wes Mayfair, Virar, Virar-401303
MENON	SUDHIR BALKRISHNA MENON		Building No 101 Room N 3508 Nilgiri, Co Op Housin Society S G Barve, Marg Op V Car Hospital Kurla Eas Mumbai-400024
SUNANDA SACHIN KUMBHAR	SUNANDA SACHIN KUMBHAR	BSE - AP01067301102051 NSE - AP0291103371	Sahar Road, Sambhaji Naga Mumbai-400069
SUNIL D VAIDYA	SUNIL D VAIDYA	NSE - AP029119161 NSE F&O - APF029119161	5 Somnath Chs, Gopal Naga Road No 1, Dombivali Easi Thane-421201
VARUN SANDIIP RUIA	VARUN SANDIIP RUIA	BSE - AP0106730158995 NSE - AP0291088121	202 Vaikunth Apartmen Upper Govind Nagar, Nea Kailashpuri Temple Mumba Malad East, Mumbai-400097
121 LAND	MILLEN	DOE 1001007001100510	702 704 11 01 0





For Pudumjee Paper Products Limited

NOTICE - MEGA E-AUCTION FOR SALE OF MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002

Sd/-

Vinay Jadhav

Company Secretary

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor, the symbolic / physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Union Bank of India (secured creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on the date mentioned below, for recovery of dues as mentioned hereunder to Union Bank of India from the below mentioned Borrower (s) & Guarantor (s). The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are also mentioned hereunder:

			1		Format	Min. Bid	PILLAI PILL	AI NSE - AP0291098241	Village Near, N G Suncit Kandivali East, Mumbai-400101
Sr. No	Name of the Branch	Name of the Borrowers / Guarantors	Discription of the Properties	Reserve Price	Earnest Money Deposit	Increment By which the Bid is to be increased	REEMA REEL AGARWAL AGAR	WAL NSE - AP0291090101	 B-501 Vikas Park Mithchowki Jn of Link Road Marve Ro Malad, Malad West, Mumbai 400064 Gala No 37, 1st Floor, Sahyoo
1	ARMB (IFB ,e-Corp)	M/s Vikram Iron & Steel Co. Pvt. Ltd. (Physical Possession)	Factory situated at Gat No 141/3 behind Devagi Metal , Next to toll Naka (2km) , Off Pune Kolhapur Highway , Shivare , Tal : Bhor , Pune.	Rs. 8,75,00,000/- (Rs. Eight Crore Seventy Five lakhs only)	Rs. 87,50,000/- (Rs. Eighty Seven Lakhs Fifty Thousand only)	Rs. 100000/- (Rs. One Lakh)	RAGHUVA- RAGHUNA- NSHI NSHI NSHI NSHI NSHI	UVA- NSE - AP0291105111 H MCX - 129277 NCDEX - 120526 IIT BSE - AP01067301102569	Industrial Estate, Near Ś Ř Stone Mira Road East Thane-401107 9 A-3/201, Ostwal Park, Jesa
2	ARMB (Warje Malwadi, UBI)	M/s Shiva Infraconstro Corporation (Symbolic Possession)	Flat No. 13 , 4 th floor , Aditya Garden City, Phase II , Building No. 3 , S. No 109-110 , Near Manikchand Sinhgarh school, Warje, Pune - 411058	Rs. 89,00,000/- (Rs. Eighty Nine lakhs only)	Rs. 8,90,000/- (Rs. Eight Lakh Ninety Thousand only)	Rs. 100000/- (Rs. One Lakh)	RAMANAND RAMAN HARLALKA HARLA SANJAY SANJ TANTIA TANT	AND NSE - AP0291103361 ALKA BSE - AP0106730182062	Park Opp, Jain Mandir Bhayander East, Thane-401105
3	ARMB (Pune Camp , e-AB)	M/s Purandare Industries (Symbolic Possession)	1 - Flat No. 7 , 3 rd Floor , Samruddhi Enclave , Cts No 3925 , S. No 46/1B/2/2/B , Plot No. 22 , adjacent to Muktangan School , Aranyeshwar road , Pune Satara road , Ananyeshwar area , Pune	Rs. 99,00,000/- (Rs. Ninety Nine lakhs only)	Rs. 9,90,000/- (Rs. Nine Lakh Ninety Thousand only)	Rs. 100000/- (Rs. One Lakh)	SANTOSH SANTO SURESHK- SURES UMAR SHAH UMAR S	SHK- NSE - AP0291105861 SHAH	2 B 1 101 Shiv Shakti Complex B P Cross Talav Road Near, J P Ground Bhayander East Thane-401105
			2 - Industrial Land situated at Gat No 63 (part) Near precomp Tools pvt Ltd Adjacent to Khed Shivapur, Kondhanpur road , Village Ranje , Tal : Bhor , Dist Pune.	Rs. 81,00,000/- (Rs. Eighty One lakhs only)	Rs. 8,10,000/- (Rs. Eight Lakh Ten Thousand only)	Rs. 100000/- (Rs. One Lakh)	SHIVAJI SHIV GANGARAM GANGA SHINGOTE SHING SHRIKANT SHRIK	OTE	Anjali Mendosa Chawl No 1 Room, No 1 Near Paranjpe Hal Datar, Colony Ashok Nagar Bhandup E, Mumbai-400042 A-401 Prajapati Cascade, Plo
4	ARMB (Hadapsar ,	M/s Sadguru Kisan Seva Vikas Kendra (Symbolic Possession)	Petrol Pump at gat no 449 , near Makar vasti , Pune Solapur Road , Village , Sahajpur , Tal : Daund , Pune	Rs. 4,17,00,000/- (Rs. Four Crores Seventeen lakhs only)	Rs. 41,70,000/- (Rs. Fourty One Lakh Seventy	Rs. 100000/- (Rs. One Lakh)	SIDDHANT SIDDH	PATI HAR ANT BSE - AP0106730180286	7 Road No. 18 Near Shiva Complex, Sector New Panvel, Panvel-410206 5 2203 Springs Island City, Center,
5	e-Corp) ARMB (Pune Camp ,	M/s Kohinoor Industries (Symbolic Possession)	Industrial Land situated on Gat No 252 (part), (PCMC property No. 258), Jyotiba nagar, Jyotiba Temple, Near Bhalekar Chowk, Talawade area, PCMC, Pune	Rs. 52,00,000/- (Rs. Fifty Two	Thousand only) Rs. 5,20,000/- (Rs. Five Lakh	Rs. 50000/- (Rs. Fifty	HIREN HIRE DAND DAN SMRUTIRE- SMRUT KHA DAS KHA D	ID FIRE- NSE - AP0291107851	Dr Ambedkar Road Near, Wadala Telephone Exchange Dadar E, Mumbai-400014 Building No 37 Flat No 803, Seawood Estate Ltd Navi,
	e-AB)		Industrial Plot situated on MIDC plot No 38/3 D-III Block, Behind star Bazar , Kalbhor Nagar , Pimpri MIDC, Pune	Lakhs only) Rs. 3,15,00,000/- (Rs. Three Crore Fifteen Lakhs only)	Twenty Thousand only) Rs. 31,50,000/- (Rs. Thirty One Lakh Fifty Thousand only)	Rs. 100000/- (Rs. One Lakh)	SNEHA SNEI RAMESHBHAI RAMESH GANGAR GANG	HA BSE - AP0106730194519 HBHAI NSE - AP0291100611 GAR	Mumbai Nerul Node 3, Thane-400706 901 Varun Tower, Opp Shivaji, Technical School Pantnagar, Ghatkopar E, Mumbai-400075
6	ARMB (Pune Camp , e-AB)	M/s Gawade and Mirghe Developers (Symbolic Possession)	Land and building Residential : Open Residential Plot S. No 450, Hissa No.1 (Old S.No 492/1), Near Hinjewadi Phase – 1, Village Maan, Tal. Mulshi, Pune -411057 admeasuring 2317.06 sq. Mt	Rs. 5,05,00,000/- (Rs. Five Crore Five Lakhs only)	Rs. 50,50,000/- (Rs. Fifty Lakh Fifty Thousand only)	Rs. 100000/- (Rs. One Lakh)	SONAL SON VARSHNEY VARSH SUDHIR SUDH BALKRISHNA BALKRI MENON MEN	INEY NSE - AP0291087911 HIR BSE - AP01067301111750 SHNA NSE - AP0291108781	 Flat No 605 Bldg No.7, Virar West Mayfair, Virar, Virar-401303 Building No 101 Room No 3508 Nilgiri, Co Op Housing Society S G Barve, Marg Opp V Car Hospital Kurla East, Mumbai-400024
7	ARMB (Pune Camp, UBI)	M/s Pacific Power Systems (Symbolic Possession)	Flat No. A-4, 1 st Floor , Hill View Residency , S. No 7 to 12 , CTS No. 739 , Kondhwa Khurd, Haveli of NIBM Road , Pune . Build up area 147.77 Sq. Mtr	Rs. 58,00,000/- (Rs. Fifty Eight Lakhs only)	Rs. 5,80,000/- (Rs. Five Lakh Eighty Thousand only)	Rs. 50000/- (Rs. Fifty Thousand)	SUNANDA SUNA SACHIN SACH KUMBHAR KUMB SUNIL D SUNI VAIDYA VAID	HIN NSE - AP0291103371 HAR LD NSE - AP029119161	 Mumbai-400024 3/312 Moreshwar Society, Sahar Road, Sambhaji Nagar, Mumbai-400069 5 Somnath Chs, Gopal Nagar 1 Road No 1, Dombivali East,
			Flat No. C-4, 1 st Floor , Hill View Residency , S. No 7 to 12 , CTS No. 739 , Kondhwa Khurd, Haveli of NIBM Road , Pune . Build up area 158.86 Sq. Mtr	Rs. 70,00,000/- (Rs. Seventy Lakhs only)	Rs. 7,00,000/- (Rs. Seven Lakh only)	Rs. 50000/- (Rs. Fifty Thousand)	VARUN VARU SANDIIP SAND RUIA RUI	UN BSE - AP0106730158995 DIP NSE - AP0291088121	Thane-421201
8	ARMB (Deccan Gymkhana , e-CB)	Mr. Mahesh Kulkarni (Symbolic Possession)	Flat No. 101 , 1 st Floor , Saraswati apartment , Next to Hotel Swaroop , Prabhat Road Lane No.10 , Pune.	Rs. 3,20,00,000/- (Rs. Three Crore Twenty lakhs only)	Rs. 32,00,000/- (Rs. Thirty Two Lakhs only)	Rs. 100000/- (Rs. One Lakh)	VIJAY VIJA SHANKAR SHAN WADAGBA- WADAG LKAR LKA VINEET VINE	KAR SBA- R ET BSE - AP01067301105443	8 703 704 Happiness City, Of Joy Jatashankar, Dosa Road Mulund West, Mumbai- 400080 3 803, Panju Mahal Bandstand,
9	ARMB (Pune Camp , e-AB)	M/s Yuga Enterprises (Symbolic Possession)	Plot along with constructed row house (G+2 nd floor)located at Plot No. 31 , S. No 282 , CTS No. 1345 , Near Shivaji Uday Mandal , Tanaji Nagar , Chinchwad , Pune	Rs. 51,00,000/- (Rs. Fifty One Lakhs only)	Rs. 5,10,000/- (Rs. Five Lakh Ten Thousand only)	Rs. 50000/- (Rs. Fifty Thousand)	SACHDEVA SACHD VINIT BIPIN VINIT E SHAH SHA	BIPIN BSE - AP0106730149784	Bandstand, Bandra W, Mumbai-400050 F-204 Sukh Sagar Co-op Hsg Society, New India Bank Lane Opp National School Virat Nagar Virar West, Vasai Virar Municipal Corporation Virar Vasai, Thane-401303
10	ARMB (Deccan Gymkhana,	M/s Saptashrungi Engg. Works Pvt Ltd (Symbolic Possession)	Flat No. 301 , 3 rd floor , Disha apartments , Mayur Colony , BHD. BOM Lane , Kothrud , Pune	Rs. 1,05,00,000/- (Rs. One Crore Five Lakhs only)	Rs. 10,50,000/- (Rs. Ten Lakh Fifty Thousand only)	Rs. 100000/- (Rs. One Lakh)	VIPUL VIPU PRADYUMNA PRADYU DALAL DAL VIRAL R VIRA	JMNA NSE - AP0291079571 AL	9 406 Prabhu Kunj 5 Peddar, Road Near Mahalaxmi, Tample Cumballa Hill, Mumbai-400026 5 29/203 Sonam Shree C H S L
	e-CB)		Gat No. 679/2/3 , Plot No. 11/7 , Near Handrikson Company , Medankarwadi, Off Alandi Road , Pune , Nasik Road , Kuruli , Chakan	Rs. 30,50,000/- (Rs. Thirty Lakh Fifty Thousand only)	Rs. 3,05,000/- (Rs. Three Lakh Five Thousand only)	Rs. 50000/- (Rs. Fifty Thousand)	PATEL PATE	EL NSE - AP0291104851 SH G BSE - AP0106730195041	Limited, New Golden Nest Complex Phase 12, Near Goddev Village Bhayander East, Thane-401105
11	ARMB (IFB ,e-Corp)	M/s Laxmi Engg. Enterprises (Symbolic Possession)	FLAT NO. 5, 2ND FLOOR, "PUSHPAK", CTS NO. 267, 267/1 TO 267/3, MALI ALI, GANDHI PETH, NEAR CHIPHEKAR CHOWK, CHINCHWAD, PUNE-	Rs. 15,00,000/- (Rs. Fifteen Lakhs only)	Rs. 1,50,000/- (Rs. One Lakh	Rs. 50000/- (Rs. Fifty	MAKWANA MAKW	ANA NSE - AP0291100961	Villa J P Road, Near D Maheshwari Hospital Manish Nagar, 4 Bunglows Andher West, Mumbai-400053
			411019- (BUILT UP AREA- 335 SQ FT) GAT NO. 767,plot 5/673, NEAR PIMPRI TELCO, PAWAR WASTI, KUDAL EWADL CHIKALL PUNE (PLOT AREA, 418 21 Sq mt)	Rs. 56,00,000/- (Rs. Fifty Six	Fifty Thousand only) Rs. 5,60,000/- (Rs. Five Lakh	Thousand) Rs. 50000/-	ZEBA ZEB GUFRAN GUFR SHAIKH SHAI	RAN KH	203/a Taiba Chs Ltd Sai Lilly Apt, Near Shams Masjid Naya Nagar, Mira Road East Thane-401107
			KUDALEWADI, CHIKALI, PUNE (PLOT AREA- 418.21 Sq mt)	Lakh only)	Sixty Thousand only)	(Rs. Fifty Thousand)	associated with us. Any so, at their own risk. Kot any queries for the trans	mention Sub Brokers (SB)/Author person henceforth dealing with a ak Securities Ltd. shall not be liabl actions till date, Investors are require the date of this notification, failing	above mention SB/AP should le for any such dealing. In case uested to inform Kotak Securiti

For detailed terms and conditions of the sale and Registration and Login and Bidding Rules visit : http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp Note : All bidders are requested to visit the above site & complete the registration, KYC updation & payment 2 to 3 days before date of E-auction to avoid last minute rush. Date & Time of E-Auction : 02.02.2021 (11 am to 2 pm)

Place : Pune Date: 14.01.2021







Authorized Officer

Union Bank of India



there exists no queries against the above mentioned SB/AP.

Ltd. within 15 days from the date of this notification, failing which it shall be deemed that

Cokotak Kotak Securities Limited. Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block

U99999MH1994PLC134051, Telephone No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430. Website: www.kotak.com / www.kotaksecurities.com. Correspondence Address: Infinity 17 Park, Bldg, No 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai 400097

Telephone No: 42856825. SEBI Registration No: INZ000200137 (Member of BSE, NSE,

Kuthis Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. CIN: